

# पारस्कर कण्डिकासूची

—०३०—

## प्रथमकाण्ड

(कण्डिका)

- १ कुशकण्डिका
- २ भावस्ययाधान
- ३ अघं, मघुपर्क
- ४ हाम से पूर्व कृत्व
- ५ विवाह का होम
- ६ लाजा होम
- ७ परिक्रमा
- ८ सह पदी
- ९ गृह्याग्नि सेवन
- १० नेमित्तिक प्रायश्चित्त
- ११ चतुर्थी कर्म
- १२ पक्षादि कर्म विधि
- १३ गर्भाधान
- १४ पुंसवन
- १५ सीमन्त
- १६ ज्ञातकर्म
- १७ नासकरण निरक्रमण
- १८ विदेश से आना
- १९ अन्नप्राशन

## द्वितीयकाण्ड

(कण्डिका)

- १ ब्रूहा कर्म
- २ उपनयन
- ३ आचार्योपदेश
- ४ सन्निदाधान
- ५ भिक्षा
- ६ समावर्तन
- ७ स्नातक के यम
- ८ स्नातक इतचर्या
- ९ पञ्चमहायज्ञ
- १० षडना (उपाकर्म)
- ११ अन्नध्यायबहुही
- १२ उत्तमर्ग
- १३ हल जोतना
- १४ श्रवणा कर्म
- १५ इन्द्र यज्ञ
- १६ पूषातक
- १७ सीता यज्ञ

तीसरे काण्ड की सूची  
पृष्ठ २९ पर देखें ॥

ओ३म्

# पारस्कर गृह्यसूत्रम्

## सभाषाभाष्यम्

समस्तजगदाधारम् जगदीशम्परात्परम् ।

नत्वा पारस्करंभाष्यम् कुर्वे संस्कारसिद्धिदम् ॥ १ ॥

भुजसप्ताङ्ग चन्द्रेब्दे मार्गशीर्षेऽस्थिते दले ।

द्वितीयायां ब्रुधे घस्ते भाष्यारम्भः कृतोमया ॥ २ ॥

काण्ड १ काण्डिका १ ( कुश कण्डिका )

अथातो गृह्यस्थालीपाकानां कर्म ॥ १ ॥

परिसमुह्योपलिप्योल्लिख्योद्गृह्यत्वाभ्युक्ष्याग्निमुः

पसमाधाय दक्षिणतोब्रह्मासनमास्तीर्थं प्रणीय

परिस्तीर्यार्थं वदासाद्य पवित्रे कृत्वा प्रोक्षणीः

संस्कृत्यार्थं वत्प्रोक्ष्य निरूप्याज्यमधिप्रित्त् पर्य-

ग्निकुर्यात् ॥२॥ सुवं प्रतप्य संमृज्याभ्युक्ष्य पुनः

प्रतप्य निदध्यात् ॥३॥ आज्यमुद्धास्योत्पूयावेक्ष्य

प्रोक्षणीश्च पूर्ववदुपयमनान् कुशानादाय समि-

धोऽभ्याधाय पर्युक्ष्य जुहुयात् ॥ ४ ॥ एष एव

विधिर्यत्रैकजिहोमः ॥ ५ ॥

भाषार्थः—(अथ) शब्द पूर्वार्चार्थं मङ्गल वाचक लिखतेषु तथा किसी बात के पूर्ण करने पीछे नई बात के आरम्भार्थ “अथ” आता है । (अतः) अथ (स्थालीपाकानाम्) गृहस्थ में स्थित युरुषों के लिये स्थालीपाकों को क्रियर कहते हैं । (परिसमुह्य) यज्ञ स्थलको कुशाओं से सकेर कर धूलि आदि दूर करके (उपलिप्य) गोबर सही जलसे लेपन कर (उल्लिख्य) खैर के काष्ठ के बने हुवे खाँड़े या सूत्रे से रेखा करे । (उद्घृत्य) रेखाओं से उठी मृत्तिकादि को अनामिका अंगुष्ठ से उठावे । (अभ्युक्ष्य) जल छिड़के (अग्निम् उप समाधाय) अग्नि को सामने रखकर (दक्षिणतो) अग्नि से दक्षिणओर (पूर्वाभिमुख बैठा यजमान) अपने दाहिने हाथ ब्रह्मा का आसन बिठावे । उसपर वेदविद् ब्राह्मणको वस्त्र भूषण पहिना कर बैठावे । (प्रणीय) प्रणीतामें जल भरे । (परिस्तीर्य) चारों ओर कुशा फैलावे । (अर्धवत्) अर्थात् प्रयोजन योग्य सामग्री को यथास्थान करे । (पवित्रे कृत्वा) दो पवित्री बना कर (प्रोक्षणीः संस्कृत्य) प्रोक्षणी को शुद्ध करके (अर्धवत् प्रोक्ष्य) प्रयोजनीय सब यज्ञवस्तुओं पात्रों कुशादि को साफ़ शुद्ध करके (निरूप्याज्यम्) घृतको देखकर (अधिभित्त्य) आज्यस्थाली को तपावे (पर्यग्नि कुर्यात्) आज्यस्थाली के चारोंओर अग्निकरे अर्थात् घुमावे जलती लकड़ी घृतके चारों ओर घुमावे ऐसी रीतिहै । परन्तु हमारी सम्मतिमें उसपात्रकी ऐसे घुमावे जो चारों ओरसे अग्निसे तपजावे । बहुत बड़ा घृतपात्र ही तौ उसके चारों ओर जलती लकड़ी ही रखदे । जिससे घृत बिखरने हाथ के जलने का भय भी न रहै ॥२॥ (सुवं प्रतप्य) सुव को तपाकर (संभृज्य) साज=साफ़ कर (अभ्युक्ष्य) जल से धोकर (पुनः प्रतप्य) फिर तपा कर

( निदध्यात् ) रखदे ॥३॥ (आज्यं उद्गास्य) घृत को उतारकर (उत्पूय) ठीक निसारे (अवेद्य) देख कर (प्रोक्षणीश्च) और प्रोक्षणीपात्रको भी (पूर्ववत्) पहिले सूत्र में कहे अनुसार हीं (उपयमनान् कुशान् आदाय) उपयमन कुशाओं की लेकर (सन्निधोभ्याधाय) सन्निधाहोमकर जल छिड़ककर होमकरे ॥३॥ (एष एव) यही विधि है जहां कहीं होम होता है ॥

भावार्थ:—इसे कुशंकण्डिकानाम से कर्गटलोग कहते हैं ॥

कण्डिका २ ( आवसथ्याधानं के सूत्र )

आवसथ्याधानं दारकाले ॥ १ ॥ दायाद्द-  
काल एकेषाम् ॥ २ ॥ वैश्यस्य बहुपशौर्गृहाद्-  
ग्निमाहृत्य ॥३॥ चातुष्प्राश्यपचनवत्सर्वम् ॥४॥  
अरणिप्रदानमेके ॥५॥ पञ्चमहायज्ञा इति श्रुतेः  
अग्न्याघेयदेवताभ्यः स्यालीपाकं श्रपयित्वाऽऽ-  
ज्यभागाविष्ट्वाऽऽज्याहुतीजुहोति ॥ ७ ॥ “त्वन्नो  
अग्ने, सत्त्वं नो अग्ने, इमं मे वरुण, तस्वा-  
यामि, ये ते शतं, अयाश्चाग्ने, उदुत्तम्, भवत्सो-  
नः” इत्यष्टौ पुरस्तात् ॥८॥ एवमुपरिष्ठात् स्या-  
लीपाकस्याग्न्याघेयदेवताभ्यो हुत्वा जुहोति ॥९॥  
स्विष्टकृते च ॥ १० ॥ “अयास्यग्नेः षषट्कृतम्,  
यत्कर्मणोऽत्यरीरिचम्, देवाणातुविदः” इति ॥११॥  
वर्हिर्हुत्वा प्राश्नाति ॥१२॥ ततो ब्राह्मण भोजनम् ॥१३॥  
भावार्थ:—( दारकाले ) विवाह के समय ( आत्रस्य

धानम् ) आवश्यक अग्नि का स्थापन होता है ॥१॥ ( एके-  
 पास दायाद्यकाले) कोई आचार्यों के मत में दायाभाग=पैतृ-  
 कादि धन बांटनेके समय होता है। प्रत्येक गृहस्थी विश्राह  
 समय से ही अलग २ नित्य प्रति होम करें, कोई कहते हैं  
 घर में एकत्र ही होम होवे परन्तु जड़ सम्पत्ति का विभाग  
 करके जुदे २ घर बनावें तब अपने २ घर में जुदे २ होम  
 किया करें ॥ २ ॥ बहुत पशु जिस वैश्य के हों ऐसे वैश्य के  
 घर से अग्नि लाकर ॥ ३ ॥ \* चातुष्प्राश्य पचन के समान  
 ऋषि विधि करे ॥ ४ ॥ कोई आचार्य अरणी देना कहते हैं  
 [ यजमान को अरणी देवे वह स्त्री पुरुष अग्नि निकालें ] ५  
 ऋषिमहायज्ञ हैं ऐसी श्रुति है ॥६॥ अग्नि के आधेय देवताओं  
 के लिये स्थालीपाक पका कर दो आहुति देकर धृता-  
 हुति देता है ॥ ७ ॥ “त्वन्नो अग्ने० ( य० २१ । ३ ) सत्वन्नो  
 अग्ने० (२१।४) इमं ये वरुण० (२१।१) तत्त्वा यामि०(२१।२)  
 ये ते० (कात्या० २५। ११) आयाश्चान्ने (का० २५। १०) उदु-  
 क्षमसू० (य० १२।१२)भवतं नः(य०५।३)यह ८ पहिले आहुतिदे  
 ॥ ८ ॥ स्थालीपाक के अन्याधेय देवतों की आहुति देकर  
 फिर उक्त मन्त्रों से ८ आहुति देवे ॥ ९ ॥ और स्विकृत  
 आहुति भी देवे ॥१०॥ अयास्याग्नेः० वषट् कृतम्, यत्कर्मणो०  
 देवाणां विदो० इन मन्त्रों से आहुति दें ॥ ११ ॥ वहीं होम  
 करके प्राशन करता है ॥१२॥ फिर ब्राह्मणोंकी भोजन करावे ॥१३॥

\* चातुष्प्राश्य अन्न ऋत्विजों के लिये पकाया जाता  
 है। कात्या० ४। १९८-२०४ तक देखो। कर्काचार्य ने लिखा  
 है कि चातु० पचन श्रौतकर्म है। अतः सर्वत्र नहीं है यही  
 जयराम का मत है ॥

कण्डिका ३ ( अर्घविधि-रुधुपकं विधि )

षडर्घ्या भक्षन्त्याऽऽचार्यऋत्विग्-वैवाह्यो  
 राजा, प्रियः, स्नातक, इति ॥१॥ प्रतिसंवत्सरा-  
 नर्हयेयुः ॥२॥ यक्ष्यमाणा स्त्वृत्विजः ॥३॥ आ-  
 सनमाहार्याह ' साधुभवानास्तामर्चयिष्यामो  
 भवन्तम्, इति ॥ ४ ॥ आहरन्ति विष्टरंपाद्यं  
 पादार्थमुदकमर्घमाचमनीयमधुपकं दधिमधुघृत  
 मपिहितंकाशं स्ये काशं स्येन ॥५॥ अन्यस्त्रिःत्रिः  
 प्राह विष्टरादीनि ॥६॥ विष्टरं प्रतिगृह्णाति ॥७॥  
 वर्ष्मोऽस्मि समानानामुदतामित्र सूर्यः । इमंत-  
 मभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति, इत्येनम-  
 भ्युपविशति ॥८॥ पादयोरन्यं ॥९॥ विष्टर आ-  
 सीनाय स्वयं पादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षालयति-  
 ॥ १० ॥ ब्राह्मणश्चेद्वक्षिणं प्रथमम् ॥ ११ ॥  
 विराजोदोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयिपा-  
 दायै विराजोदोहः' इति ॥१२॥ अर्घं प्रतिगृह्णाति  
 'आपः स्थयुष्माभिः सर्वान् कामानवाप्नुवन्ति'  
 इति ॥ १३ ॥ निनयन्नभिमन्त्रयते ' समुद्रं वः  
 ग्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरिष्टोऽ-  
 स्माकं वीरा मा परासेचि मत्पयः, इति ॥ १४ ॥  
 आचामति, 'आमागन् यशसा सः सृजवर्चसा

तं माकुरुप्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं  
 सननाम्, इति ॥ १५ ॥ मित्रस्यत्वेति मधुपर्कंप्र-  
 सोक्षते ॥ १६ ॥ देवस्यत्वेति प्रतिगृह्णाति ॥१७॥  
 सव्येपाणीकृत्वा दक्षिणस्यानामिकया त्रिः प्र-  
 यौति ' नमः श्यावास्यायान्नशनेपत्त आविहूं  
 तत्ते निष्कृन्तामि, इति ॥ १८ ॥ अनामिकांगुष्ठे-  
 नचत्रिर्निरुक्षयति ॥१९॥ तस्य त्रिः प्राश्नाति "य-  
 न्मुधुनो मधव्यं परमंथं रूपमन्वाद्यं । तेनाहं  
 मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्वाद्येनपरमो  
 मधव्योऽन्वादेऽसानि, इति ॥२०॥ मधुमतीभिर्षा  
 प्रत्यूचम् ॥ २१ ॥ पुत्रायान्तेवासिनेवोत्तरत आ-  
 सीनायोच्छिष्टं दद्यात् ॥ २२ ॥ सर्वं वा प्राश्नी-  
 यात् ॥ २३ ॥ प्राग्वाऽसंचरे नितयेत् ॥ २४॥ आ-  
 चम्य प्राणान् संमृशति—'वाङ् म आस्ये, नसोः  
 प्राणः, अक्ष्णोश्चक्षुः, कर्णयोः श्रोत्रम्, वाह्वोर्व-  
 लम्, ऊर्वोरोजः, अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा  
 मे सह' इति ॥ २५ ॥

“आचान्तोदकाय शासनादाय गौरिती त्रिः प्राह ॥२३॥  
 प्रत्याह, नातां रुद्राणां दुहिता वसूनाथं स्वसाऽऽदित्यानाम  
 सृतस्य नाभिः । प्रनुबोधं चिकित्से जनाय सागामनागाम  
 दितिं वधिष्ठ । नमसामुष्य च पाप्मानं शंहनंमि, इति यद्वा-

लभेत ॥ २७ ॥ अथ यद्युत्सृजेत् ' ममचामुष्यः च पाप्मा  
 सृतः, ओमुत्सृजत तृणान्यत्तु, इति श्रूयात् ॥ २८ ॥ नस्वेवामां  
 सोऽर्घः स्यात् ॥ २९ ॥ अधियज्ञमधिविवाहं कुरुतेत्येव श्रूयात्  
 ॥ ३० ॥ यद्यप्यसकृतं सर्वदशरस्य सोमेन यजेत कृताघर्षा  
 एवैनं याजयेयुर्माकृताघर्षाः, इति श्रुतेः ॥ ३१ ॥

भाषार्थ—आचार्य १ ऋत्विज् २ विवाहवालावर ३ राजा  
 ४ प्रियमित्र ५ स्नातक ६ यह छः अर्घ के योग्य होते हैं ॥१॥  
 प्रतिथर्य पूजने चाहिये ॥ २ ॥ जब जब यज्ञ करे तब तब ही  
 ऋत्विजों का पूजन करें ॥ ३ ॥ आसन हाथ में लेकर कहता  
 है कि हम आप को पूजेंगे भले प्रकार बैठिये ॥४॥ आसन  
 लाते हैं बैठने को, पाद्य=पग धोने को जल, अर्घ, आच-  
 मन को जल, और मधुपर्क को दधि, शहत, घृत ढका हुआ  
 कांसी के पात्र में कांसी ही के पात्र से ढका हुआ ॥ ५ ॥  
 यजमान के अतिरिक्त कोई अन्यपुरुष विष्टरादि को विष्टरो  
 विष्टरो विष्टरः ऐसे ३।३ बार कहै ॥६॥ विष्टर लेता है ॥७॥  
 घर्षोस्मि० इस मन्त्र को पढ़ कर विष्टर पर बैठता है ॥८॥  
 अन्य आचार्यों का मत है कि पाहों के नीचेही विष्टर रखे  
 विष्टर पर बैठे का बांया पग धुलाने के पीछे दक्षिण पग  
 धुलावे ॥ १० ॥ ब्राह्मण हो ती पहिले दक्षिणपग धुलावे ११  
 " धिराजो दोही० " इस मन्त्र से ॥ १२ ॥ " आपस्थ० "  
 इस मन्त्र से अर्घ ॥ १३ ॥ " समुद्रं० " इस मन्त्र को पढ़ता  
 हुआ अर्घ के जल को भूमि पर छोड़ता है ॥१४॥ 'आमागन्'  
 इस मन्त्र से आचमन करता है ॥ १५ ॥ मित्रस्य त्वा० इस  
 मन्त्र से ( मधुपर्क को ) हाथ में लेता है ॥ १७ ॥ धार्ये हाथ  
 में लेकर दहिने हाथ की अनामिका से " नमः श्यावा० "  
 इस मन्त्र से घोलता है ॥ १८ ॥ अनामिका और अंगूठे से  
 तीन बार छीटा देता है ॥ १९ ॥ ' यन्मधुनी ' इस मन्त्र से



तीन वार मधुपर्क चाटता है ॥ २० ॥ वा " मधुमती० " इस से ३ प्रति ऋचाओं से ३ वार मधुपर्क भक्षण करै ॥ २१ ॥ उत्तर की ओर बैठे पुत्र वा शिष्य को मधुपर्क का भूँठन=उच्छिष्ट देवे ॥ २२ ॥ या सय ही चाटले ॥ २३ ॥ या पूर्वकी ओर गढ़े में बखेर दे ॥ २४ ॥ आचमन कर वाङ् मे० इत्यादि कह कर अङ्ग स्पर्श करता है ॥ २५ ॥ ( उदकाय #शासं आदाय ) जल के लिये आज्ञा लेकर ( आचम्य ) आचमन करके गौः गौः गौः ऐसा तीनवार कहै । अथवा जलसे आचमन किये अर्घ्य से आज्ञा लेकर गौः ३ कहै वर " माता रुद्रा० " इस मन्त्र को पढ़े । गौ को ब्राह्मण ग्रहण करै वा छोड़ दे ॥ २६-२७ ॥ प्रति यज्ञ प्रति विवाहमें गोदान किया जाता है ऐसा कहै ॥ ३० ॥ यद्यपि वर्ष में कई वार सोमयाग करै तौ भी प्रति यज्ञ में ही अर्घादि देवे क्योंकि श्रुति में बताया है कि अर्घ किये हुए ही इस यजमानको यज्ञकरावैं बिना अर्घ पाये न करवे ॥

# शासं का अर्थ हरिहरादि भाष्यकार खङ्ग करते है । हमारी समझ में शासं का अर्थ आज्ञा ही ठीक है ॥ अथवा हमारी सम्मतिमें यह २५ से २७ तक ५ सूत्र वामभाग के मिलाये हैं क्योंकि मधुपर्क हो चुका, खा भी चुके, आगे गौ की प्रशंसा है कि यह गौ रुद्रों की माता, बसुओं की बेटी आदित्यों की भगिनी असृत की माभि है । विचारवान् पुरुषों की में कहता हूँ ( अनागाम् ) निष्पाय ( गाम् ) गौ को ( मा वधिष्टः ) मत भारो । यह मन्त्र किसी प्रामाणिक ग्रन्थ या वेद वाक्य नहीं तौ भी न मारने की आज्ञा है । गौ की प्रशंसा है । जब अर्घ्य पूजनीय राजादि ही निषेध करता है फिरभी वहकार्य करना आज्ञाभंग पापभी है ॥

कण्डिका ४ ( होम से पूर्व कृत )

चत्वारः पाकयज्ञा हुतोऽहुतः प्रहुतः प्रा-  
 शित इति ॥ १ ॥ पञ्चसु बहिः शालायां विवाहे  
 चूडाकरणे उपनयने केशान्ते सीमन्तोन्नयन  
 इति ॥ २ ॥ उपलिप्तऽउद्धृतावोक्षितेऽग्निमुपसमा-  
 धाय ॥ ३ ॥ निर्मन्थ्यमेके विवाहे ॥ ४ ॥ उद-  
 गयन आपूर्यमाण पक्षे पुण्याहे कुमार्याः पाणिं  
 गृह्णीयात् ॥ ५ ॥ त्रिषु त्रिषूत्तरादिषु ॥ ६ ॥  
 स्वातौ मृगशिरसि रोहिण्यां वा ॥ ७ ॥ तिस्त्रौ  
 ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण । ८ । द्वे राजन्यस्य ॥ ९ ॥  
 एका वैश्यस्य ॥ १० ॥ सर्वेषां शूद्रामप्येके  
 मन्त्रवर्जम् ॥ ११ ॥ अथैनां वासः परिधापयति  
 'जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टीनामभि  
 शस्तिपावा । शतं च जीव शरदः सुवर्चा रधिं  
 च पुत्रा ननुसंव्ययस्त्रायुष्मतीदं परिधत्स्व  
 वासः, इति ॥ १२ ॥ अथोत्तरीयम्—'या अकृ-  
 न्तन्नवयन् या अतन्वत याश्च देखीस्तन्तूनभि  
 तो ततन्थ । सास्त्रा देवी र्जरसे संव्ययस्त्रायु-  
 ष्मतीदं परिधत्स्व वास" इति ॥ १३ ॥ अथैनौ  
 समञ्जयति " समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृद-

यानिनौ । संमातरिश्वा संधाता समुदेष्टी दधातु  
 नौ " इति ॥ १४ ॥ पित्रा प्रत्तामादाय गृहीत्वा  
 निष्क्रामति " यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपव-  
 आनो वा । हिंश्यपर्णैर्वैकर्णः स त्वा मन्म-  
 नसां करोतु असौ " इति ॥ १५ ॥ अथैनी समी-  
 क्षयति "अघोरखल्लुरपतिघ्न्येधि शिवा पशुभ्यः  
 सुमनाः सुवर्चाः । वीरसूद्धैव कामास्थेनाशब्दो  
 भव द्विपदे शं चतुष्पदे " । सोमः प्रथमो त्रि-  
 विदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । तृतीयो अग्निष्टे  
 पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः । सोमोऽदद्गन्ध-  
 र्चाय गन्धर्वोऽदद्दग्नये । रयिं च पुत्रांश्चादा-  
 दग्निर्मह्यमथो इमाम् । तां पूषन् शिवतमा मेर  
 यस्व सान ऊरुउशती विहर । यस्यामुशन्तः  
 प्रहराम शेषं यस्यामु कामा बहवो निविष्ट्यैइति

भाषार्थ—१ हुत, २ अहुत, ३ प्रहुत ४ प्राशित, यह चार पाक  
 यज्ञ हैं? १ विवाह । २ सुंछन । ३ यज्ञोपवीत ४ केशान्त ५ सीम-  
 न्तोन्नयन इन पांच संस्कारों में बाहर की शाला में होते हैं  
 ( अर्थात् दो दो शाला बनावे ) ॥ २ ॥ छेपन की उद्घृत की  
 छिड़के भूमि में अग्नि को सामने स्थापित कर के ॥ ३ ॥  
 आचार्य विवाह में अग्नि को मंथन कर स्थापित करे यह  
 उत्तरायण में शुक्लपक्ष में शुभ दिन में कुमारी, ॥ ४ ॥ कन्या  
 का प्राणिग्रहण करे ॥ ५ ॥ उत्तराफाल्गुनी, ईस्त, चित्रा, उत्तरा-

षांदा, अर्षण, धनिष्ठा, उषाराभाद्रपदा, रेवती, अश्विनी इन नक्षत्रों में ॥६॥ या स्वाति, मृगशिर, रोहिणी में (विवाह करे) वर्ण क्रमसे ३ वर्णों की ब्राह्मण की (स्त्री) ॥८॥ दो क्षत्रियकी । ए॥ १ वैश्यकी ॥१०॥ विवाह योग्य है। कोई आचार्य शूद्रको चारों वर्णोंकी स्त्री योग्य बताते हैं, बिनाही मन्त्र पढ़े ॥११॥ जरांगच्छ० इस मन्त्र से अग्नि स्थापन के बाद अक्ष इसे वस्त्र पहिनाता है ॥ १२ ॥ इस के पीछे "या अकृ०" इस मन्त्र से ओदन ( उढावे ) ॥ १३ ॥ तदुपरान्त " समजन्तु० " इस मन्त्र से इन दोनों वधुवरों को सम्मुख करता है ॥ १४ ॥ पितासे दी हुई कन्या को ले हाथ पकड़ कर " यदैषि० " इस मन्त्र से चलता है अद्वोरषक्षु० इन मन्त्रोंसे परस्पर देखते हैं ॥१६॥

कण्डिका ५ ( विवाह होम )

प्रदक्षिणमग्निं पर्याणीयैके ॥१॥ पश्चादग्ने  
स्तेजनीं षटं वा दक्षिणपादेन प्रवृत्योपविशति  
॥२॥ अन्वारब्ध आधारावाज्यमागौ महाव्या-  
हृतयः सर्वप्रायश्चित्तं प्राजापत्यथं स्विष्टकृच्च  
॥ ३ ॥ एतन्नित्यं सर्वत्र ॥४ ॥ प्राङ् महाव्या-  
हृतिभ्यः स्विष्टकृदन्यञ्चेदाज्यादुविः ॥ ५ ॥ सर्व-  
प्रायश्चित्तं प्राजापत्यान्तर मेतदावापस्थानं वि-  
वाहे ॥६॥ राष्ट्रभृत् इच्छञ्ज्याम्यातनांश्च जानन्  
॥ ७ ॥ येन कर्मणोत्सृदिति वचनात् ॥ ८ ॥ चित्तं  
च चित्तिश्चाकूतंचाकूतिश्च विज्ञातं च वि-

ज्ञातिश्च मनश्च शक्नोरीश्च दर्शश्च पौर्णमासं च  
 वृहञ्च रथन्तरं च । प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे  
 प्रायच्छदुग्रः पृतनाजयेषु । तस्मै विशः समन-  
 मन्त सर्वाः स उग्रः स विहव्यो बभूव स्वाहा,  
 इति ॥ ९ ॥ अग्निर्भूतानामधिपतिः स माऽ-  
 वतु इन्द्रो इति ॥ ९ ॥ अग्निर्भूतानामधि पतिः  
 स माऽवतु । इन्द्रो ज्येष्ठानाम् । यमः पृथिव्या ।  
 वायुरन्तरिक्षस्य । सूर्योदिवः । चन्द्रमा नक्षत्रा-  
 णाम् । वृहरूपतिर्ब्रह्मणः । मित्रः सत्यानाम् ।  
 वरुणोऽपाम् । समुद्रः क्षीत्यानाम् । अन्नं  
 साम्राज्यानामधिपति तन्माऽवतु । सोम ओष-  
 धीनां, सविताप्रसवानां । रुद्रः पशूनां । त्वष्टा  
 रूपाणां । विष्णुः पर्वतानां । मरुतो गणानाम-  
 धिपतयस्ते माऽवन्तु । पितरः पितामहाः परे-  
 ऽवरे ततास्ततामहाः इह मावन्त्वस्मिन् ब्रह्म-  
 ण्यस्मिन् क्षत्रऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम-  
 स्मिन् कर्मण्यस्यां देवहुत्याथं स्वाहा, इति स-  
 र्वत्रानुपजति । १० । अग्निरैतु प्रथमो देव-  
 तानां सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशाद् । तद-  
 ग्रं राजा वरुणाऽनुमन्यतां यथेयं स्त्री पीत्र-

मघन्न रोदात्, स्वाहा । इमामग्निस्त्रायतां  
 गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः । अशू-  
 न्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभि-  
 विवुध्यतामियथं स्वाहा । स्वस्तिनो अग्ने दिव  
 सापृथिव्या विश्वानि धेह्ययथा यजत्र । यदस्यां  
 महि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं धेहि  
 चित्रथं स्वाहा । सुगन्तु पन्थां प्रदिशन्न एहि  
 ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्न आयुः । अपैतु मृत्युरमृतं  
 मआगाद्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु स्वाहा, इति  
 । ११ । परं मृत्यविति चैके प्राशनान्ते । १२ ।

भाषार्थ—कोई आचार्य भग्निपरिक्रमाके पीछे उक्त विधि  
 को मानते हैं । १ । अग्नि के पश्चिमभाग में तृणमय आ-  
 सन पूछा या बोरिया दुना हुवा बिछाकर बैठे ॥ २ ॥ ब्रह्मा  
 से आज्ञा लेकर आचार आज्यभाग २२ आहुतिदे । महाव्या-  
 हृतियों से । ३ । सर्व प्रायश्चित्ताहुति १ प्राजापत्य आहुति १  
 ख्विष्टकृत् भी १ आहुति दे ॥ ३ ॥ यह सर्वत्र होमों में नित्य  
 कर्म है ॥ ४ ॥ यदि घृत के सिवाय अन्य चरु भी होम को  
 हो तो महाव्याहृतियों से पूर्व ख्विष्टकृत् आहुति होती है ।  
 ॥ ५ ॥ सर्व प्रायश्चित्त और प्राजापत्य होम के बीच में यह  
 अवापस्थान विवाह में होता है ॥ ६ ॥ राष्ट्रभूत की इच्छा  
 करता हुवा और जय तथा अभ्यातन को जानता हुवा होमे  
 ॥ ७ ॥ येन कर्मशोर्धत्तत्रहोतव्या ऋणोत्येवतेन कर्मणा ( तै०

शं० ३।४।६) इस वचन से ( ज्ञात होता है कि ) जिस कर्म की ऋद्धि चाहे उसी मन्त्र से होन करे ॥ ७ ॥ जय होम के मन्त्र ( ९ सूत्र में चित्तं च० इस में बताया है स्वाहा शब्द लगा कर होम होता है जो पद्धति में लिखेंगे ) । ९ सूत्र ॥१०॥ ११ से अभ्यातन होम होता है यह भी पद्धति में लिखेंगे । परसृत्यो अनु० इस मन्त्र से भी आहुति देवे । कोई आचार्य कहते हैं कि संश्रवं प्राशनके पीछे इस मन्त्रसे आहुतिदेवे ॥१२॥

छठी कण्डिका—( लाजा होम )

कुमार्या भ्राता शमी पलाश मिश्रांल्लाजानं  
जलिनांजलावावपति । १ । ताञ्जुहोति स०  
हतेन तिष्ठन्ती अर्यमणं देवं कन्या अग्निमय-  
क्षत । स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पते  
स्वाहा । इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका, आयु-  
ष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ।  
इमांलाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव ।  
मम तुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियं  
स्वाहा, इति । २ । अथास्यै दक्षिणं हस्तं गृह्णा-  
ति सांगुष्ठम्—गृभ्णामि ते सौभगतवाय हस्तं  
मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । भगो अर्यमा स-  
विता पुरन्धिर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः ।  
अमोहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्यमो अहं, सा  
माहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं । तावहि

विषहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै  
पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टयः ।  
सप्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः  
शतं जीवेम शरदःशतं शृणुयामशरदः शतमिति३

भाषार्थ-कन्या का भाई जाड़ के पत्ते मिली धान की खीलों  
को अंजलिसे (कन्या की) अंजलि पर छोड़ता है ॥ १ ॥ यह  
कन्या खड़ी हुई पतिकी अंजलिके साथ "अर्यमणम्" इत्यादि  
मन्त्रों से आहुति देती है ॥२॥ अब इस के दक्षिण हाथ को  
अंगूठे सहित वर पकड़ता है "सौभगाय त्वा०" यह मन्त्र  
बोलता है ॥ ३ ॥ ६ ॥

अथैनामश्मानमारोहयत्युत्तरतोऽग्नेर्दक्षि-  
णपादेन 'आरोहेममश्मानमश्मेव त्वं स्थिरा  
भव । अक्षितिष्ठ पृतन्यतोऽवघाधस्व पृतनायत  
इति ॥ १ ॥ अथ गाथां गायति 'सरस्वति प्रे-  
दमव सुभगे घाजिनीवती । यां त्वा विश्वस्य  
भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः । यस्यांभूतं सम-  
भवद्दस्यां विश्वमिदं जगत् । तामदा गाथां  
गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः, इति ॥ २ ॥  
अथ परिक्रामतः 'तुभ्यमग्ने पर्यवहन् सूर्यां वह-  
न्तुना सह । पुनः पतिभ्योजार्यादाग्ने प्रजया  
सह" इति ॥ ३ ॥ एवं द्विरपरं लाजादि ॥ ४ ॥



चतुर्थं शूर्पकुष्ठया सर्वांललाजानावर्पाति 'भगा-  
यस्वाहा' इति ॥ ५ ॥ त्रिः परिणीतां प्राजा-  
पत्यं हुत्वा ॥ ६ ॥ ७ ॥

भाषार्थ—अब अग्निसे उत्तरकी ओर दक्षिणपगसे पत्थर  
पर चढ़ाता है । आरोहेम० इस मन्त्रसे । १ उदुपरान्त सर-  
स्वति० इस मन्त्र से वर गाथा गाता है । अब तुंस्यमग्नेपर्य०  
इस मन्त्र से परिक्रमा करते हैं ॥ ३ ॥ ऐसे ही दोवार फिर  
लाजादि होम करै ॥ ४ ॥ चौथे छाज की खूंट से सब खील  
छोड़ता है । भगाय स्वाहा० इस मन्त्रसे तीनवार परिक्रमा  
करा कर प्राजापत्य होम करके ॥ ६ । ७ ॥

अथैनामुदीचीं सप्तपदानि प्रक्रामयति,  
एकमिषे, द्वे ऊर्जे, त्रीणि रायरूपोषाय, चत्वारि  
मायोभवाय, पञ्च पशुभ्यः, षड् ऋतुभ्यः, सखे  
सप्तपदाभव सामामनुव्रता भव ॥ १ ॥ विष्णु-  
स्त्वा नयत्विति सर्वत्रानुषजति ॥ २ ॥ निष्क्र-  
मणप्रभृत्युदम्भं स्कन्धे कृत्वा दक्षिणतोऽग्नेः  
वर्गयतः स्थितो भवति ॥ ३ ॥ उत्तरत एकेषाम्  
॥४॥ तत् एनां मूर्धन्यभिषिञ्चति ' आपः शिवाः  
शिवत्तमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृष्वन्तु  
भेषजम् ' इति ॥ ५ ॥ आपो हिष्टेति च ति-  
सृभिः ॥ ६ ॥ अथैनां सूर्यमुदीक्षयति 'तच्चक्षुः  
इति ॥ ७ ॥ अथास्यै दक्षिणां समधि हृदय

मालभते 'मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्त-  
मनु चित्तं ते अस्तु । प्रम वाचमेकमना जुषस्व  
प्रजापतिष्ठा नियुक्तं मह्यम्' इति ॥८॥ अथैना  
मभिमन्त्रयते 'सुमङ्गलीरियं बधूरिमांशुसमेत  
पश्यत । सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथाऽस्तं विपरे-  
तन, इति ॥ ९ ॥ तां दृढपुरुष उन्मथय प्राग्वो-  
दग्त्राऽनुगुप्तागारे \* आनुडुहे रोहिते चर्मण्युप-  
वेशयति ' इह गावो निषीदन्तिवहाश्वा इह  
पुरुषाः । इहे सहस्रदक्षिणी यज्ञ इह पूषा  
निषीदतु" इति ॥१०॥ ग्रामवचनं च कुर्युः ॥११॥  
विवाहश्मशानयोग्रामं प्रविशतादिति वचनात्  
॥ १२ ॥ तस्मात् तयोग्रामः प्रमाणम् इतिश्रुतेः ।  
॥ १३ ॥ आचार्याय वरं ददाति ॥ १४ ॥ गौर्ब्रा-  
ह्मणस्य वरः ॥ १५ ॥ ग्रामोराजन्यस्य ॥ १६ ॥  
अश्वोवैश्यस्य ॥ १७ ॥ अधिरथश्शतं दुहित-  
मते ॥ १८ ॥ अस्तमिते ध्रुवं दर्शयति 'ध्रुवमसि  
ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्ये मयि । मह्यं  
त्वादाद् बृहस्पतिर्मयापत्या प्रजावती शंजीव  
शरदः शतम् इति ॥ १९ ॥ सा यदि न पश्येत्  
पश्यामीत्येवब्रूयात् ॥ २० ॥ त्रिरात्रमक्षारलव-

णाशिनौ स्यातामधः शयीयाताथं संवत्सरं न  
मिथुनमुपेयातां द्वादशरात्रं षड्रात्रं त्रिरात्रम-  
न्ततः ॥ २१ ॥ ८ ॥

भाषार्थ—अब इस कन्या को अग्नि से उत्तर की दिशा में सात पग चलता है । एकमिथे० इत्यादि ७ मन्त्रोंसे ॥१॥ विष्णुस्त्वां नयतु०=विष्णु तुम्हें चलायें, यह सर्वत्र ७ सातों वार लगावे ॥२॥ क० ४ । १५ के निकलने के समय से पानी का कलश कन्धे पर धरे, अग्नि से दक्षिण की ओर मौनहो बैठा रहे ॥ ३ ॥ कोई आचार्य उत्तर में बैठना कहते हैं ॥४॥ आपः शिवा० इस मन्त्रसे इस कन्याके शिरपर लीटा जाता है ॥ ५ ॥ आपोहिष्ठा० इन ३ मन्त्रों से भी ॥ ६ ॥ अब इसे सूर्य दिखाता है । तच्चक्षुः० इन मन्त्र से ॥७॥ फिर इस कन्या के दक्षिण कन्धे के नीचे हृदय को (घर) छूता है । ममब्रते० इत्यादि मन्त्र से ॥ ८ ॥ फिर इसे सुमंगलरियं० इस मन्त्र को पढ़ता है ॥९॥ उस कन्या को दूढ़ पुरुष अर्थात् घर उठा कर पूर्व या उत्तर में पर्देके घरमें लेजावे । (\*आनुहुह=लाल विस्तर पर बैठात्रे) जिस विस्तर पर लालरंग से सुन्दर बैल का चित्र बना हो ऐसे विस्तर पर बैठावे । इहगावो० यह मन्त्र पढ़े ॥१०॥ ग्राम वचन भी करे अर्थात् ग्राम की रीति नीति भी करे ॥ ११ ॥ विवाह और सृत्यु में ग्राम में प्रवेश करे इस वचन से । स्त्रियों की प्रसन्नताथे उन की भी रीति नीति विवाह और सृत्यु समय वर्ते ॥१२॥ इन दोनों अब-

\* नोट—आनुहुह चर्म का अर्थ पौराणिक पद्धति कार शय की त्वचा टाट का फर्श कहते हैं ॥

सरों सें ग्राम का प्रमाण है यह श्रुति अर्थात् जनश्रुति है १३  
 आचार्य को वर दक्षिणा देवे ॥ १३ ॥ ब्राह्मण का वर गौ दे  
 ॥ १५ ॥ राजा का वर ग्राम दे ॥ १६ ॥ वैश्य का वर घोड़ा  
 दे ॥ १७ ॥ श्य सहित १०० गौ कन्यापक्ष के आचार्य को देवे  
 ॥ १८ ॥ सूर्यास्त होने पर 'ध्रुवमसिः' इम मन्त्र से ध्रुव को  
 दिखावे ॥ १९ ॥ तीन रात्रि तक अक्षर और नमकरहित भोजन  
 करे ॥ २० ॥ भूनि पर सोवे, १ वर्ष स्त्री समागन न करे ॥ २१ ॥  
 १२ रात्रि तक छः रात्रि तक या ३ रात्रि तक ही संग न करे ॥

नवमी कण्डिका ९ ( साधारण नित्य होम )

उपयमनप्रभृत्यौपासनस्य परिचरणम् ॥१॥ अ-  
 स्तमितानुदितयोर्दध्नातण्डुलैरक्षतैर्वा । २। अग्नये  
 स्वाहा, प्रजापतये स्वाहेतिसायम् ॥३॥ सूर्याय  
 स्वाहा, प्रजापतये स्वाहेतिप्रातः ॥४॥ पुमा ॐ  
 सौ मित्रावरुणौ पुमा ॐ सा वश्विनावुभौ ।  
 पुमानिन्द्रश्च सूर्यश्च पुमा ॐ सं वर्तता मयि  
 पुनः स्वाहेति पूर्वा गर्भकामा ॥ ५ ॥ ६ ॥

भाषार्थ—उपयमन कुशलेकर आरम्भ कर औपासन=गृह्य  
 अग्निपरिचर्या सेवा (कहते हैं) ॥१॥ सूर्यास्त से सूर्योदय तक (इस  
 का समय है) इही, या चावल वा अन्नतों से (करे) ॥२॥ अ-  
 नये स्वाहा १ प्रजापते स्वाहा २ सायं काल में ॥३॥ 'सूर्या-  
 यस्वाहा' प्रजापतये स्वाहा यह प्रातः काल ॥ ४ ॥ यदि  
 गर्भ की इच्छा वाली स्त्री हो तो पुमांश्च सौ ० इस मन्त्र से १  
 आहुति पहिले स्त्री देवे ॥ ५ ॥ ६ ॥

दशमी १० कण्डिका ( प्रायश्चित्त )

राज्ञौऽक्षभेदे नद्विविमेक्षे यान्निपर्यासेऽन्यस्यां  
वा वयापत्तौ स्त्रियाश्चोद्वहने तमेवाग्निमुपास-  
माधायाज्यं संस्कृत्येहरति रिति जुहोति नाना  
मन्त्राभ्याम् ॥१॥ अन्यद्यानमुपकल्प्य सत्रोपवेश  
येद्राजानं स्त्रियं वा प्रतिक्षत्र इति यज्ञान्तेना-  
त्वाहार्षमिति चैतया ॥२॥ धुर्यो दक्षिणा ॥३॥  
प्रार्थश्चित्तिः ॥४॥ ततो ब्राह्मणं भोजनम् ॥५॥ १०॥

भाषार्थः—राजा जब दीरे का आरम्भ करे या शत्रु पर  
घड़ाई करे उस समय रथ का कोई भाग टूट जाय वा स-  
घन जोड़ खुल जाय वा रथ लौट जाय या अन्य कोई आ-  
पत्ति आजाने पर अथवा वर स्त्रियों को विवाह करे लाता  
हो तब उसी गृह्याग्नि को राजा की यात्रा में सेनाग्नि  
को समाधान करके घृतको शुद्ध कर । इहरति० (य० ८ । १५)  
इत्यादि ९ मन्त्रों से घृताहुति देवे और अनेक मन्त्रों से  
भी ॥ १ ॥ अन्य सवारी तयार कर के उस में राजा वा वि-  
वाहिता भार्या को बैठावे । प्रतिक्षत्रे० (य० २० । १०) यज्ञे तक  
मन्त्र से आत्वाहर्षं० यजुः १२ । ११ पाठ करे ॥ २ ॥ धोरी  
दो बैल दक्षिणा देवे यह प्रायश्चित्त कर्म है ॥ ४ ॥ फिर ब्रा-  
ह्मणों को भोजन करावे । ५ । १० ॥

११ वीं कण्डिका ( चतुर्थो कर्म )

चतुर्थ्यामपररात्रे ऽभ्यन्तरतोऽग्निमुपसमाधा-  
द्य दक्षिणतो ब्राह्मणमुपवेश्योत्तरत उदपात्रं मू-

तिष्ठाप्यस्थालीपाकं प्रपयित्वा ऽऽज्यभागा-  
विष्ठाऽऽज्यः हुतोर्जुहोति ॥ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं  
देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम  
उपधावामि, याऽस्यै पतिघ्नान्नू स्तामस्यै-  
नाशय स्वाहा । वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां  
प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम उपधा-  
वामियाऽस्यै प्रजाघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा ।  
सूर्प प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्रा-  
ह्मणस्त्वा नाथकाम उपधावामि याऽस्यै  
पशुघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा । चन्द्र प्राय-  
श्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा  
नाथकाम उपधावामि याऽस्यै गृहघ्नी तनू-  
स्तामस्यै नाशय स्वाहा । गन्धर्व प्रायश्चित्ते त्वं  
देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम  
उपधावामि याऽस्यै यशोघ्नी तनू स्तामस्यै  
नाशय स्वाहेति । २ । स्थालीपाकस्य जुहोति  
' प्रजातये स्वाहेति ' । ३ । हुत्वाहुत्वैतासां मा-  
हुतीनामुदपात्रे स ॐ स्रवान्तसमवनीय तत एनां  
मूर्धन्यभिषिञ्चति प्राते पतिघ्नी प्रजाघ्नी पशु-

घनी गृहघनी यशोघनी निन्दिता तनूर्जारघनी  
 तत एनां करोमि साजीर्यं त्वं मया सह, अभा-  
 यिति ॥ ४ ॥ अथैना ७ स्यालीपाकं प्राशयति  
 'प्राणैस्ते प्राणान्त्संक्षयाम्यस्थिभिरस्योनिमा ७  
 सैर्मां ७ सानि त्वच्चा त्वच मिति । ५ । तस्मादेवं  
 विच्छ्रोत्रियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुतह्येवं  
 वित्परो भवति । ६ । तामुदुह्य यथर्तुप्रवेशनम् । ७  
 यथाकामीवाकाममाविजनितोः सम्भवामेतिव-  
 चनात् । अथास्यैदक्षिणां ७ समधिहृदयमालभते  
 'यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम् ।  
 वेदाहं तन्मां तद्विद्यात् पश्येम शरदः शतं जीवेम  
 शरदः शतं ७ ऋणुयाम शरदः शतमिति ॥ ६ ॥ एव  
 मत्त ऊर्ध्वम् ॥ १० ॥ ११ ॥

भाषार्थः—विवाह से ४ थी रात के पिछले भाग में अर्ध  
 रात्रि के पीछे घर के भीतर अग्नि स्थापन करे दक्षिण में  
 अस्त्रा को आसन दे उत्तर में जल पात्र रख स्याली पाक  
 बना आज्यभागाहुति और आज्याहुति देता है ॥ १ ॥  
 अग्नि प्रायः । सूर्य प्रायः । गन्धर्वः इन मन्त्रों से आहुति  
 देता है ॥ २ ॥ प्रजापतये स्वाहा इस मन्त्र से स्याली पाक  
 से होकरता है प्रत्येक मन्त्र की आहुति के पीछे खुबके बचे घृत को  
 जल में छोड़ता जाय और उस पात्रके जलसे निम्न मन्त्रसे बधु  
 के शिर को अभिषेक करे ॥ ३ ॥ अत्र इस बधु को प्राणैस्ते

मन्त्र से स्थाली पाक शुक्राता है । (इस मन्त्र से पति पत्नी का एक ही अन्न हो जाता है) इस लिये यह जानने वाला श्रोत्रिय की स्त्री से हंसी न करे । ऐसा जानते शत्रु होजाता है ॥ ६ ॥ उस पत्नी को घेर लेजा कर ऋतु ऋतु में सम्भोग करे ॥ ७ ॥ अथवा जब उस की कामना हो क्यों कि पहिले गर्भ इस कामना से सम्भोग करें ऐसा वचन है ॥ ८ ॥ अब इस पत्नी के दक्षिण कन्धे के ऊपर हाथ कर हृदय को स्पर्श करता है "यत्तेषुसीमे" ॥ ९ ॥ यह मन्त्र पढ़े ऐसे ही इस के बाद भी जब सङ्गम हो इसी मंत्र से हृदय कुवे ( १०

१२ कण्डिका (पाक्षिक यज्ञ )

पक्षादिषु स्थालीपाकं ऋपयित्वा दर्शपूर्णमास  
देवताभ्यो हुत्वा जुहोति ब्रह्मणे प्रजापतये वि-  
श्वेभ्यो देवेभ्यो द्यावापृथिवीभ्यामिति । १ । वि-  
श्वेभ्यो देवेभ्यो बलिहरणं भूतगृह्येभ्य आका-  
शाय च । २ । वैश्वदेवस्याग्नौ जुहोत्यन्नये स्वाहा,  
प्रजापतये स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, अ-  
ग्नये सिषष्टकृते स्वाहेति प्राशनान्ते । ३ । बाह्यतः  
स्त्री बलि ॐ हरति 'नमःस्त्रियै नमः पुंसे व-  
यसे वयसे नमः । शुक्लाय कृष्णदन्ताय पापीनां  
पतये नमः । ये मे प्रजामुपलोभयन्ति ग्रामे व-  
सन्ता उत्वाऽरण्ये । तेभ्यो नमोऽस्त बलिमेभ्यै



हरामि स्वस्ति मेऽस्तु प्रजां मे ददत्विति ॥४॥शेष  
मद्भिः प्रप्लाव्य ततो ब्राह्मण भोजमम् ॥५॥

भाषार्थः—पक्षारम्भ दिन में १ प्रतिपदा को स्थालीपाक  
पकाकर दर्श पीर्णमास की देव आहुति करके ब्रह्मणे स्वाहा  
प्रजापतये० विश्वेभ्यो देवेभ्योः, द्यावापृथिवीभ्याम् स्वाहा,  
इत मन्त्रों से होम करता है ॥ १ ॥ विश्वेदेवो, गृहभूतो आ-  
काश के लिये भी बलि ( अन्न ) देता है ॥ २ ॥ विश्वेदेव  
के अन्न में से अग्निमें इन मन्त्रोंसे होम करता है । अग्नये  
स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, अग्नये-  
स्विष्टकृते स्वाहा, इति यह आहुति प्राशनान्त में होती है  
( संस्रव प्राशन उस को कहते हैं जो खुवेका घृत जल में  
छोड़ते जाते हैं ) उस घृत को चाटते हैं ॥ ३ ॥ अग्निशाला  
के बाहर यजमान पत्नी बलि देती हुई यह मन्त्र पढ़ती है ।  
नमःस्त्रियैनमपु० ॥ ४ ॥ शेष अन्न को जो हाथ से लगा हो  
जलमें छोड़दे फिर ब्रह्मभोज । यह दर्श पीर्णमास यज्ञ है ॥५॥

कश्चिका १३ ( गर्भ धारणोपाय )

सा यदि गर्भं न दधीत सिंध्य्याः श्वेतपुण्या  
उपोष्यपुष्येण मूलमुत्थाप्य चतुर्थेऽहनि स्नातायां  
निशायामुदपेषं पिष्ट्वा दक्षिणस्यां नासिकायां  
भासिञ्चति इयमोषधी त्रायमाणा सरस्वती ।  
अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिव नाम जग्-  
भामिति ॥ १ ॥ १३ ॥

वह स्त्री यदि गर्भ धारण न करे तो पुण्य नक्षत्र के दिन व्रत करके पति सिंही वूटी जुफेद पुष्पवाली जड़ सहित उखाड़ लावे । जड़ रजस्वला होकर स्नान करे चौथे दिन की रात्रि में वूटी को पानी में पीसकर नाक के दाहिने नथने में निचोड़ दे । इयमोपधी० यह मन्त्र पढ़े ॥

पुंसवन संस्कार १४ वीं कण्डिका

अथ पुंशु सवनम् । १ । पुरास्यन्दत इति मासे द्वितीये तृतीयेत्रा । २ । यदहः पुंशुसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युज्येत तदहरुपवास्याः प्लव्याहते वाससी परिधाप्य न्यग्रोधावरोह । जह्नुङ्गांश्च निशाया मुदपेपं पिष्ट्वा पूर्ववदां सेचनं ३ 'हिरण्यगर्भाऽद्भ्यः सम्भृतः' इत्येताभ्याम् । ३ । कुशकण्टकं सोमो ४ शुं चैके । ४ । \* कूर्मपित्तं चोपस्थे कृत्वा स यदि कामयेत वीर्यवान्स्त्र्यादिति त्रिकृत्यै नमभि मन्त्रयत्, सुपर्णाऽसीति प्राग्निवष्णु क्रमेभ्यः । ५ ।

अब पुंसवन कर्म कहते हैं ॥ १ ॥ (स्पन्दतपुरा) हिलने से पहिले दूसरे या तीसरे सहीने में ॥ २ ॥ जिस दिन पुण्य नक्षत्र से युक्त चन्द्रमा हों उस दिन पत्नी को व्रती रख स्नान करा शुद्ध वस्त्र धारण करा कर रात्रि में बड़ के वृक्ष की जटा और कोंपलों को रात्रि में जल से पीसकर पहिलेकहे क्रानुसार हिरण्य गर्भ० । ३ । अद्भ्य सं० इन दो मन्त्रों से दाहिनी नासिका में निचोड़े ॥ ३ । कोई आचार्य बटजटा के साथ

कुशा का कांटा और सोमलता ४ वस्तु निचोड़ना कहते हैं  
॥ ४ ॥ वह पुरुष चाहे कि मेरा पुत्र बलवान हो तौ भार्या  
के उपस्थ पर \* “ कूर्म पित्त रखकर ” विकृतिछन्द के  
सुपर्णासि यजुः १२।४ इस मन्त्र से गर्भ को स्पर्श करे फिर  
विष्णोक्तमो सि० यजुः १२।५ यह दो मन्त्र पढ़े ॥

१५ कण्डिका—आगे सीमन्तोन्नयन है ॥ १ ॥

अथ सीमन्तोन्नयनम् । १। पु०सवनवत् । २।  
प्रथमगर्भमासे षष्टेऽष्टमेवा । ३। तिलमुद्गमिश्र

\* नोट—पुंसवन संस्कार में कूर्मपित्तकी पत्रों के उपस्थ  
पर रखना लिखा है । हरिहरादि चारों भाष्यकारों ने इस  
का अर्थ पानी की शराई लिखा है । श्री राजाराम जी ने  
भी यही अर्थ किया है परन्तु नोट में कछुवे का पित्त भी  
लिख दिया है जो किसी कोश से नहीं मिलता । हमारी  
सम्मति में कछुवे का पित्त गर्भ होता है जो हानिप्रद होगा  
इसी लिये सब टीकाकारों ने पानों का पात्र लिख दिया है  
कूर्म कच्छ कच्छप एकार्ध शब्द हैं । अक्षरकोष में लिखा है ॥

कुणिः कच्छः कांतलको नन्दिवृक्षोथराक्षसी ।  
वनौषधिक्षर्ग श्लोक १२८ द्वितीय कांड

टीका—कुणिः (तुणिः) कच्छः कांतलकः “नन्दी के वृक्षः”  
यत्कं नन्दि वृक्षस्य नांद रूखी इति ख्यातस्य अयं अश्वत्था  
कार पत्रः ॥

पीपल के आकार का पत्ता होता है यह पत्ता भी है ॥  
२—इस वृक्ष के पत्ते की टिकिया बना कर रखना प्रतीत  
होता है । सम्भव है कि कच्छ पत्र के स्थान में कूर्म पित्त  
पाठ बन गया हो ॥

ॐस्थालीपाकॐ अपयित्वा प्रजापतेर्हुत्वा पश्चा-  
दग्नेर्भद्रपीठ उपविष्टायां युग्मेन सटालुग्रप्सेनौ-  
दुम्बरेणत्रिभिश्चदर्भपिण्डजूलैस्त्रेण्या शलत्या वी-  
रतरशङ्कुना पूर्णचात्रेण च सीमन्तमूर्ध्वं विनयति  
‘ भू'र्भुवः स्वरिति ’ । ४ । प्रतिमहाव्याहृतिवा  
। ५ । त्रिवृतमावधनाति ‘ अथमूर्जावतो वृक्ष  
ऊर्ज्जीव फलिनी भवेति, । ६ । अथाह वीणा-  
गाथिनौ राजानं संगायेतां यो वाय्वन्योवीर-  
तर इति । ७ । नियुक्तामप्येके गाथा मुपोदाह-  
रन्ति सोम एव नो राजेमा मानुषीः प्रजाः ।  
अभिमुक्तचक्र आसीरं स्तीरे तुभ्यम्, असौ, इति  
यां नदी मुपावसिता भवति तस्या नाम गृह्णाति  
। ८ । सतो ब्राह्मण भोजनम् । ९ ।

आगे सीमन्तोन्नयन है १ पुंसवन के समान ही है २ । ६ठे  
या ८ वें मास में प्रथम गर्भ समय में ही होता है ॥ ३ ॥

तिल मूंग मिलाकर स्थाली पाक पकाकर प्रजापति की  
आहुति करें अग्नि के पश्चिम में कोमल आसन बिछा कर  
स्त्री पुरुष दोनों बैठें । ३ कुशा ३ सेह के कांटे जो ३ जगह  
लुफेद हों । या लकड़ी की कंधी डारे से बन्धी हुई । दो  
गूजर के फलों का गुच्छा हाथ में लेकर ३ महाव्याहृतियों  
से मांग निकाले ॥ ४ ॥ अथवा ३ महाव्याहृतियों से ३ वार

भांग निकाले ॥५॥ गूलर की गुच्छी को शिर में बांधदे अथ-  
भूर्जावतो० इस मन्त्र से ३ गांठ देवे । ६॥ पति दो वीशा गायकों  
को राजानं० इस मन्त्र के गान को कहै ॥७॥ कोई आचार्य  
“ सोम एवमो राजेम० ” इस मन्त्र को भी वीशा से गदाते  
हैं । असौ के स्थान में गर्भिणी स्त्री पाश्र्ववत्ति नदी का नाम  
लेवे ॥ ८ ॥ फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥

१६ कण्डिका ( जातकर्म विधिः )

सोष्यन्तीमद्विरभ्युक्षति ' एजतु दशमारुघः '  
इति प्राग् 'यस्यैते, इति । १। अथाक्षरावपतनम्  
' अवैतु पृश्नि शैवलथंशुने जराध्वत्तवे । नैव  
माथंसेन पीवरि न कस्मिंश्चनायतमवजरायु  
पद्वताम्, इति । २। जातस्य कुमारस्याचिच्छन्नायां  
नाभ्यां मेधाजननायुष्ये करोति । ३। अनामि-  
कया सुवर्णान्तर्हितया "मधुघृते प्राशयति घृतं  
वा ' भूस्त्वयि दधामि भुवस्त्वयि दधामि स्व-  
स्त्वयिदधामि भूः भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि,  
इति । ४ । अथास्यायुष्यं करोति । ५ । नाभ्यां  
दक्षिणे वा कर्णे जपति 'अग्निरायुष्मान्त्स वन-  
रपतिभिरायुष्मांस्तेन त्वाऽऽयुषा ऽऽयुष्मन्तं  
करोमि । सोम आयुष्मान्त्स ओषधीभिरायुष्मां-  
स्तेनत्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । ब्रह्मायुष्मत्

तद्ब्राह्मणैरायुष्मत् तेनत्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करो-  
मि । देवा आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तेन-  
त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । ऋषय आयुष्म-  
न्तस्तेव्रतैरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं क-  
रोमि । पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्त-  
स्तेनत्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । यज्ञ आयु-  
ष्मन्तस दक्षिणाभिरायुष्मांस्तेनत्वाऽऽयुषाऽऽयु-  
ष्मन्तं करोमि । समुद्र आयुष्मान्तसस्रवन्तीभि-  
रायुष्मांस्तेनत्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि, इति  
। ६ । त्रिस् त्रिस् 'त्रयायुषम्' इति च । ७ ।  
स यदि कामयेत सर्वमायुरियादितिवात्सप्रेणै-  
नमभिमृशेत् । ८ । दिवस्पति इत्येतस्यानुवाक-  
स्थीपत्तमामृचं परिशिनष्टि । ९ । प्रतिदिशं पञ्च  
ब्राह्मणानवस्थाप्य ब्रूयाद् 'इममनुप्राणित्' इति  
। १० । पूर्वा ब्रूयात् 'प्राण' इति । ११ । 'व्यान'  
इति दक्षिण । १२ । 'अपान' इत्यपरः । १३ ।  
'उदान' इत्युत्तरः । १४ । 'समान' इति पञ्चम  
उपरिष्ठादवेक्षमाणो ब्रूयात् । १५ । स्वप्नं वा कुर्या-  
दनपरिक्राममविद्यमानेषु । १६ । स यस्मिन् देशे

जातो भवति तत्रभिमन्त्रयते 'वेद ते भूमिहृदयं  
दिवि चन्द्रमसि श्रितम् । वेदाहं तन्मां तद्विद्यात्  
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणु-  
याम शरदः शतम्' इति । १७ । अथैनमभिमृ-  
शति 'अश्मा भव परशुर्ध्व हिरण्य मस्तुतं भव  
। आत्मा वै पुत्रनामासि सजोव शरदः शतम्  
इति । १८ । अथाऽस्यमातर मभिमन्त्रयते 'इडा-  
ऽसि मैत्रावरुणी वीरमजोजनथाः । सा त्वं  
वीरवती भव याऽस्मान् वीरवतोऽकरत् , इति ।  
१९ । अथास्यै दक्षिणं स्तनं प्रक्षाल्य प्रयच्छति  
' इमंस्तनम्' इति । २० । ' यस्ते स्तनः ' इत्युत्त-  
रमेताभ्याम् । २१ । उदपात्रं शिरस्तो निदधाति  
' आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ एव  
मस्यां सूतिकायां सपुत्रिकायां जाग्रथ' इति  
२२ । द्वारदेशे सूतिकाऽग्निमुप समाधायोत्थानात्  
संधिवेलयोः फलीकरणमिश्रान् सर्पपानशावा-  
वपति ' शण्डामर्क्या उपवीरः शौण्डिकेय उलू-  
खलः । मलिम्लुचे द्रोणासश्चयवनो नश्यतादितः  
स्राहा । आलिखन्तमिपः किं वदन्त उपश्रुतिः

हर्यक्षः कुम्भी शत्रुः पात्रपाणिर्नृमणिर्हन्त्रीमुखः  
 सर्षपारुण श्चयवनो नश्यता दितः स्वाहा' इति  
 २३ । यदि कुमार उपद्रवज्जालेन प्रच्छाद्योत्तरी-  
 येण वा पिताऽङ्गु आघाय जपति 'कूर्कुरः सुकूर्कुरः  
 कूर्कुरो बालबन्धनः । चेञ्चेच्छुनक सृजनमस्ते  
 अस्तु सीसरोलपेतापवहर तत्सत्यम् । यत्ते  
 देवावरमददुः सत्त्वं कुमार श्रेत्र वावृणीथाः ।  
 चेञ्चेच्छुनकसृज नमस्ते अस्तु सीसरोलपेतापहूर  
 सत्सत्यं । यत्ते सरमा माता सीसरः पिता  
 श्यामशबलौ धातरौ चेञ्चे च्छुनक सृज नमस्ते  
 अस्तु सीसरो लपेतापवहर, इति । २४। अभिमृशति  
 न नामयति न रुदति न हृष्यति न ग्लायति यत्र  
 वयं वदामेयत्र चाभिमृशामसि' इति । २५ ।

प्रसवासन्न पत्नी को एजतु दशनास्यः यजुः० ८ । २८ इस मन्त्र से  
 यस्पैते० ८ । २९ तक २ मन्त्रों को पढ़कर जलका छीटा देवे ।  
 बालक के भूमि पर आने पर अर्धैतु पृश्नि० यह मन्त्र पढ़े ॥

जन्म के पीछे नाल छेदन करा कर मेधा जनन आयुष्य  
 बुद्धि प्रद आयुमद क्रिया करे ॥ ३ ॥ यथा-सुवर्णयुक्तअना-  
 मिका लङ्गली से घृत शहत चटावे या केवल घृत इस मन्त्र  
 से चटावे । भूः त्वयि दधामि । भुवः त्वयिद० । स्वः त्वयिद० ५  
 फिर आयुष्य करता है ॥ ५ ॥ नाभि या दक्षिण कान से अग्नि  
 आयुष्यान्० । सोम आयु० । ब्रह्मा० आयु० । देवा० । ऋषयः



आ० । पितर० । यज्ञ आ० । समुद्र आयु० । इन मन्त्रों का पाठ करता है । ६ ॥ आयुष० यजुः-३ । ६२ इस मन्त्र से तीन बार आयुष्य आशीर्वाद करता है ॥ ७ ॥ पिता यदि पुत्र की सर्वायु चाहे तौ ( यजु० १२ । १८ से २८ तक मन्त्र ) वात्सप्र अनुवाक ८ का पाठ करै ॥ ८ ॥ दिवस्परिःप्रथमं० इस मन्त्र से आरम्भ कर इस अनुवाक की अन्त की ऋचा ऋद्धे (शेष ११ मन्त्र पढ़े ) ॥ ९ ॥ प्रत्येक दिशा में ५ ब्राह्मण बैठाने ( १ पूर्व २ दक्षिण ३ पश्चिम ४ उत्तर ५ मध्य ) यज्ञमान ८ न से आशीर्वाद की प्रार्थना करै ॥ १० ॥ पूर्व का कहे "प्राण" ११ दक्षिण का "व्यान" १२ । पश्चिम का "अपान" १३ । उत्तर का "उदान" १४ । मध्य का ऊपर को देखकर "समान" ऐसा कहे ॥ १५ ॥ ब्राह्मण न हों तौ चारों ओर घूमता हुआ स्वयं पिता ही इन उक्त शब्दों को कहे ॥ १६ ॥ जिस भूमि पर जन्म लिया उस भूभाग को स्पर्श कर पढ़े "वेदते०" इस मन्त्र को पढ़ता है १७ ॥ फिर इस बालक को छूकर "अश्माभव०" इस मन्त्र को पढ़ता है १८ ॥ फिर इस की बालक की माता को छूकर इहासि० यह मन्त्र पढ़ता है । १९ ॥ फिर उस की दक्षिणदूधी को धीकर और "इसंस्तनसू०" य० १७ । ८७ मन्त्र पढ़कर बालक को देवे ॥ २० ॥ यस्ते स्तनः० ( बृहदा० ६ । ४ । २७ ) इस मन्त्र से बायां स्तन धीकर पिलाने को दे । इन दो मन्त्रों से दोनों स्तन धीकर पिलावे २१ ॥ पानी का पात्र गिरहाने रखता हुआ "आपोदेवेषु०" यह मन्त्र पढ़े ॥ २२ ॥ सूतिजागृह के द्वार पर सूतिकाग्नि का ऋष्यांजन कर जब तक प्रसूता न सठे नित्यप्रति दोनों

समय वहाँ बंधामर्काः७ इन २ मन्त्रों से सरसों फलीकरण \*  
मिलाकर होम करता है ॥ १३ ॥

यदिबालक रोगी हो तौ पिता गोदी में बैठाकर जाली  
वा दुपट्टे से ढक कर " कुर्कुरः० इस मन्त्र को जपे ॥ २४ ॥  
फिर " त्वनामयति० " इस मन्त्र से स्पर्श करे ॥ २५ ॥ १६

१७ कण्डिका

दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा  
पिता नाम करोति । १ । द्वयक्षरं, चतुर्क्षरं वा  
घोषवदाद्यन्तरन्तस्थं दीर्घाभिनिष्ठानकृतं कुर्यान्न  
तद्धितम् । २ । अयुजाक्षर माकारान्तं स्त्रियै  
तद्धितम् । ३ । शर्म ब्राह्मणस्य धर्मक्षत्रियस्य

नोट—“ फलीकरणमिश्रान्सर्वपान् श्रम्यौ० ” यहाँ  
फलीकरण का अर्थ 'कर्क, गदाधर, हरिहर, जयराम के संस्कृत  
भाष्यों और तदनुसार ही श्री राजाराम जी के भाष्य में भी  
तंडुल कण=चावल की फिनकी में सरसों मिला कर ही  
होम लिखा है परन्तु हम को फलीकरण का अर्थ चावल  
कण कहीं कोष में या ध्युशक्ति द्वारा ठीक प्रतीत नहीं हुआ ।  
तब कोष देखे ऐसे ज्ञात हुआ कि फली नाम शमरकोष  
के वनौपधिषर्ग कांड २ के श्लोक ५५ में प्रियंगुलता का है ॥

कण्वध्वन्ता कुबेराक्षी— “ श्यामा तु महिला ह्वया ।

सता गोवन्दिनी गुद्रा—प्रियंगुः फलिनी फली ॥ ५५ ॥

विष्वक्सेना गंधफली कारम्भा प्रियकश्चसा ” ।

श्यामा से प्रियङ्गुतक १२ नाम प्रियंगुके हैं ॥

गुप्तेति वैश्यस्य ।१। चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका ।५।  
सूर्यमुदीक्षयति ' तच्चक्षुः ' इति । ६ । १७ ।

दशमे दिन प्रसूता को उठाकर ब्रह्मभोज कराकर पिता नाम धरै ।१। नाम २ या ४ अक्षर का हों घोष \* अक्षर, आदि में हो, मध्य में अन्तस्थ हो, अन्त में दीर्घ वा विसर्ग हो क्त प्रत्ययान्तहो।तद्वितान्त न हो ॥२ ॥ विषमाक्षर आकारान्त तद्वितान्त कन्या का नाम हो ॥ ३ ॥ शर्मा ब्राह्मण, धर्मा क्षत्रिय, गुप्त वैश्य के (नामान्तमेही) ॥४॥ चौथे मास निष्क्रमण होता है ॥ ५ ॥ " तच्चक्षुः० यजुः ३६ । २४ "मन्त्रसूर्य को दिखाता है ॥ ६ ॥ १७

१८ कण्डिका

प्रोष्येत्य गृहानुपतिष्ठते पूर्ववत् ।१। पुत्रं  
दृष्ट्वा जपति—' अङ्गादङ्गात् सम्मधसि हृदयादधि  
जायसे । आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः  
शतमिति । २ । अथाऽस्यमृद्धानिमवजिघ्रति 'प्र-  
जापतेष्ट्वा हिङ्कारेणावजिघ्रामि सहस्रायुषाऽसी-  
जीव शरदः शतम्, इति । ३ । गर्वां त्वा हिङ्का-  
रेणेति चेतिदक्षिणेऽस्य कर्णे जपति ' अस्मे  
प्रयन्धि मधवन्नृजीषिन्निन्द्र रायो विश्ववारस्य  
भूरः । अस्मे शसंशरदो जीवसे धा अस्मे वीरां

\* घोषाक्षर—ग घ ङ । ज ऋ ञ । ङ ङ ण, द ध न, व म म  
? य र ल व अन्तस्थ

उच्छ्रित इन्द्र शिप्रिन्, इति । १ । इन्द्र श्रेष्ठानि  
द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ।  
पोषणं रयीणामरिष्टिं सनूनां स्वाक्षमानं वाचः  
सुदिनत्व महाम्, इति सव्ये । ५ । स्त्रिवैतु  
मूर्ध्निमेवाधजिघ्रति तूष्णीम् । ६ । १८

विदेशसेधरआताहै१पूर्ववत्वासकरताहैपुत्रकोदेखकरजपता है  
“ अङ्गा दङ्गा० यह मन्त्र शतपथ ॥२॥ फिर इस पुत्र के शिर  
को सूंघता है “ प्रजापते० ” कन्त्र से ॥ ३ ॥ गवांत्वा० यह  
मन्त्र पुत्र के दक्षिण कान में जपता है । ४ । इन्द्रम् श्रेष्ठा०  
यह मन्त्र बांये कान में ( जपे ) ॥ ५ ॥ कन्याओं के शिर को  
ही चुपके सूंघले ॥ ६ ॥ १८ ॥

१८ वीं कण्डिका

षष्ठे मासेऽन्नप्राशनम् । १ । स्थालीपाकं  
श्रपयित्वाऽऽज्यभागा त्रिष्ट्वाऽऽज्याहुती जुहोति  
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो  
वदन्ति । सा नो मद्देषमूर्जं दुहाना धेनुर्वाग-  
स्मानुप सुष्टु तैतुस्वाहा, इति । २ । ‘वाजी नो  
अक्ष’ इति च द्वितीयाम् । ३ । स्थालीपाकस्य  
जुहोति ‘ प्राणेनान्नामशीय स्वाहा, अपानेन  
गन्धानशीय स्वाहा, अक्षुषारूपाण्यशीय स्वाहा,  
श्रोत्रेण यशोऽशीय स्वाहा, इति । ४ । प्राश-

नान्ते सर्धान् रसान्त्सर्वमन्त्रमेकत उद्धृत्याथैनं  
 आशयेत् । ५ । तूष्णीं ॐ हन्तेति वा 'हन्तकारं  
 मनुष्या' इति श्रुतेः । ६ । भारद्वाज्या माथंसेन  
 वाक्प्रसारकामस्य । ७ । कपिलुलर्मांसेनास्त्रा-  
 द्यकामस्य । ८ । मरुस्यैर्जघनकामस्य । ९ । कृक-  
 षाया आयुष्कामस्य । १० । आठ्या ब्रह्मवर्च-  
 सकामस्य । ११ । सर्वैः सर्वकामस्य । १२ । अन्न-  
 पर्यायवा ततो ब्राह्मणभोजनमन्नपर्यायवा ततो  
 ब्राह्मणभोजनम् । १३ । १६॥

कठे मांस में "अन्नप्राशन" अन्नघटाना होता है ॥ १ ॥  
 स्थालीपाक पकाकर आण्य भागाहुति देकर " देवी वा० "   
 इस मन्त्र से आहुति दे ॥ २ ॥ वाजो नो अघ इस मन्त्र से  
 दूसरी ॥ ३ ॥ स्थालीपाक से होस करता है " प्राणेनात्मन्  
 अशीय स्वाहा । अपानेन गंधं० । चक्षुषा रूपा० । श्रोत्रेण  
 यशोऽशीय स्वाहा" इन मन्त्रों से आहुति देवे । ४ । संख्य  
 प्राशन के पीछे सब रसों को सब अन्नों को एकत्र करे और  
 बालक को घटावे ॥ ५ ॥ चुप होकर घटावे वा " हन्त "   
 कह कर । क्योंकि "हन्त हारम् मनुष्याः" यह श्रुति है ॥ ६ ॥  
 ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ सूत्र प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं ।  
 क्योंकि सद्यरसो को सब अन्नों को घटा चुकने के पीछे  
 मांस घटाने में क्या रस नसक आदि नहीं हैं ?  
 अन्न परोसकर ब्राह्मण को भोजन करावे ॥१३॥

## अथद्वितीयकाण्डे प्रथमाकाण्डिका

सांघत्सरिकस्य चूडाकरणम् । १ । तृतीये  
 घाऽप्रतिहते । २ । षोडशवर्षस्य केशान्नः । ३ ।  
 यथामंगलं वा सर्वेषाम् । ४ । ब्राह्मणान् भोज-  
 यित्वा माता कुमारमादायाप्लाव्याहसे वाससी  
 परिधाप्याङ्क आधाय पश्चादग्नेरुपविशति । ५ ।  
 अन्वारब्ध आज्याहुतीर्हृत्वा प्राशनान्ते शीता-  
 स्वप्सूणा आसिञ्चति 'उष्णेन वाय उक्षेनेह्य-  
 दिते केकान् वप' इति । ६ । केशश्मश्रिति च  
 केशान्ते । ७ । अथात्र नवनीतपिण्डं घृतपिण्डं  
 दधनी वा प्रास्यति । ८ । तत्र आदाय दक्षिणं  
 गोदानमुन्दति 'सवित्रा प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु  
 ते तनुं दीर्घाय त्वाय वर्चसे' इति । ९ । त्रेण्या  
 शलल्या विनीय त्रीणि कुशतरुणान्यन्तर्दधाति  
 'ओषध' इति । १० । 'शिवोनाम' इति लोह-  
 क्षुरमादाय 'नवर्तयामि' इति प्रवपति 'येना-  
 यपत्सविता क्षरेण सोमस्यराज्ञा वरुणस्य विद्वान्  
 तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्थायुष्यं जरदष्टिर्यथाऽसद्  
 इति । ११ । सक्रेशानि प्रच्छिद्यात्तुद्गहे गोमयं

पिण्डे प्रास्यत्युत्तरतोऽध्रियमयाणे १२। एवं द्विर-  
 परं तूष्णीम् । १३ । इमरथोश्चोन्दनादि । १४ ।  
 अथपश्चात् 'त्रयायुषम्' इति । १५ । अथो-  
 त्तरतः 'येन भूरिश्वरादिवं ज्योक् च पश्यामि  
 सूर्यम् । तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे  
 जीवनाय सुश्लोक्यायस्वरतये' इति ॥ ६ ॥  
 त्रिः क्षुरेण शिरः प्रदक्षिणं परिहरति ॥ १७ ॥  
 संमुखं केशान्ते । १८ । यत्क्षुरेण मज्जयता सुपे-  
 शसा वप्रा वपति केशान् छिन्धि शिरोमाऽस्यायुः  
 प्रमोषीः । १९ । मुखमिति च केशान्ते । २० ।  
 ताभिरद्विः शिरं समुद्रं नापिताय क्षुरं प्रय-  
 च्छति 'अक्षण्वन् परिवपं' इति । २१ । यथा  
 मङ्गलं केशशेषकरणम् । २२ । अनुगुप्तमेतत्सकेशं  
 गोमयपिण्डं निघाय गोष्ठे पल्वल उदकान्ते  
 वाऽऽचार्याय वरं ददाति । २३ । गांकेशान्ते । २४ ।  
 संवारसरं ब्रह्मचर्यमवपनं च केशान्ते द्वादशरात्रं  
 छुण्डात्रं त्रिरात्रमन्ततः । २५ । १ ॥

घूँडाकरण १ वर्ष के बालक का होता है ॥१॥ या तीसरे  
 वर्ष की समाप्ति से पूर्व । २ । १६ वर्ष के बालक का केशान्त  
 होता है अथवा कुला चारानुसार जिस वर्ष में होता हो वा

जब अनुकूल हो तब ही शब केश क्लृप्तकरावै ॥४॥ ब्राह्मण  
 जिमाकर माता बालक को लेकर स्नान करा नवीन दो वस्त्र  
 पहिनाकर गोद में ले अग्नि के पश्चिम भाग में बैठे ॥५॥ पिता  
 ब्रह्मा से अन्वारब्धकन्या छूकर आज्याहुति से प्राशन पर्य-  
 न्त सब कर्म करै । उष्णेनवा० इस मन्त्र से ठंडे जल में  
 गरम जल मिलावे केशान्त संस्कार में केशशमश्रु कहै ॥७ ॥  
 फिर पानी में मक्खन वा घृत वा दही डाले ॥८॥ उस जल  
 में से घुसलुभर कर दहिनी कनपटी पर बालों को सवित्रा  
 प्रसूतेन, इस मन्त्र से गीला करै ॥९ ॥३॥ सेह के कांटे ३ कुशा  
 लेकर बालों को “ओपपे त्रायस्व० यजुः० ४ । १ इस मन्त्र  
 से बाल ढांपे ॥ १० ॥ शिवोनामासि०य० ३ । ६३ इस पद से  
 लोहे का उस्तरा लेकर “ निवर्त्तयाम्यायुषे ३ । ६३ इस  
 मन्त्र से केशकाटने आरम्भ करै । येनावपस० मन्त्र को पढ़ता  
 हुवा काटे । ११ । कुश सहित केश काटकर अनुहुहवृष के  
 गोधर पिंडकी उत्तर में धरकर उस में बालों को रखताजाय  
 ॥१२॥ इसी प्रकार और दो वार घुष के से काटे ॥१३॥ अन्य  
 दोनों ओर के बालों को भिगोनादि कार्य ती मन्त्र पूर्वक  
 करै ॥ १४ ॥ तपश्चात् त्रयायुषं० इस मन्त्र को पढ़े ॥ १५ ॥  
 येनभूरिः० इस यजुः ३ । ३६ से बांये भाग के बाल कोटे ॥६॥  
 तीन वार शिरके आरों ओर प्रदक्षिणक्रम उस्तरा से घुमावे १७  
 केशान्त संस्कार में मुख के दाढ़ी सूख भी मूंडे ॥ १८ ॥  
 यत्शुरेश० यह मन्त्र मुंहन का है ॥ १९ ॥ मुख के बाल के-  
 शान्त में जख मूंडे ॥२०॥ पूर्वोक्त प्रकार शीतल और उष्णो  
 दकों से शिर को भिगो कर नाई को उस्तरा देता है ।  
 अद्यु० खून न निकले ऐसा मूंडो ॥ इस मन्त्र से ॥ २१ ॥ यथा



योग्य कुलदेशाचारानुसार केश कटावे ॥ २२ ॥ शिखा कंधी  
छटती है । सब केशों को बिन कर गोवर सहित लपेट कर  
गोशाला पोखर या नदी में गाढ़ देवे आचार्य को भेट दे ।  
॥ २३ ॥ केशान्त संस्कार में गोदान दे । २४ ॥

बुढ़ा कर्म संस्कार के पीछे १ वर्ष तक बाल न मुड़ावे  
ब्रह्मचर्य वत् रहै । और केशान्त के पीछे १२ वा ६ वा ३  
रात्रि तक क्षीर न करावे ॥ २५ ॥

इति द्वितीय काण्डे प्रथमा कण्डिका ।

कण्डिका २ ( उपनयन )

अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयेद् गर्भाष्टमेवा । १।  
एकादशवर्षं ७राजन्यम् । २ । द्वादशवर्षं वैश्यम्  
३ । यथामङ्गलं वा सर्वेषाम् । ४। ब्राह्मणान् भोज-  
येत् तं च पर्युप्तशिरसमलङ्कृतमानयन्ति । ५।  
पश्चादग्नेरवस्थाप्य “ ब्रह्मचर्यमागाम् ” इति  
वाचयति “ ब्रह्मचार्यसानि ” इति च । ६। अथैनं  
वासः परिधापयति “ येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः  
पर्यदधादमृतम् । तेन त्वा परिदधास्यायुषे  
दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ” इति । ७। मेखलां  
वध्नीते “ इयं दुरुक्तं परिधाधमाना वर्णं पवित्रं  
पुनती म आगात् । प्राणापानाभ्यां बलमाद-  
धाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्, इति । ८।

“युष्वा सुवासाः परिधीत आंगात् सं उ श्रेयान्  
 भवति जायमानः । तं धीरासः कथय उन्नयन्ति  
 स्वाध्या मनसा देवयन्तः ” इति वा । १६ । तूष्णीं  
 वा । १० । ( यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते-  
 र्यत् सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्चं  
 शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । यज्ञोप-  
 वीतं मसि यज्ञेस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपन-  
 ह्यामि ” इति । अथाजिनं प्रयच्छति “मि-  
 त्रस्य चक्षुर्धरुणं बलीयस्तेजो यशस्त्रि स्यविरलं  
 समिद्धम् । अनाहनस्यं वसनं जरिष्णुः परीदं  
 वाज्यजिनं दधेऽहम् ” इति दण्डं प्रयच्छति । ११ ।  
 तं प्रतिगृह्णाति “यो मे दण्डः परापतद्ववैहाय-  
 सोऽधि भूम्याम् । तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे  
 ब्रह्मवर्चसाय ” इति । १२ । दीक्षावर्देके ‘दीर्घसत्र  
 मुपैति, इति वचनात् । १३ । अथाऽस्याद्विस्त्र-  
 लिनाऽञ्जलिं पूरयति ‘आपोहिष्ठा’ इति तिसृभिः  
 । १४ । अथैनत्सूर्यमुदीक्षयति ‘तच्चक्षुः’ इति  
 । १५ । अथास्य दक्षिणात्समधि हृदयमालभते  
 ‘ममव्रते ते हृदयं दद्यामि ममचित्तमनुचित्तं

ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुषस्व बृहस्प-  
 तिष्ठा नियुनक्तुमह्यम्, इति । १६ । अथाऽस्य  
 दक्षिणश्रुहस्तं गृहीत्वाऽऽह 'कोनामाऽसि, इति  
 । १७ । असौ 'अहं भोः३, इति प्राह । १८ । अथैन-  
 माह 'कस्य ब्रह्मचार्यसि, इति । १९ । 'भवतः,  
 इत्युच्यमाने 'इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्य-  
 स्तवासी, इति । २० । अथैनं भूतेभ्यः परिददाति  
 'प्रजापतये त्वा परिददामि देवाय त्वा सवित्रे  
 परिददाम्यद्भ्य स्त्वौषधीभ्यः परिददामि द्यावा  
 पृथिवीभ्यां त्वा परिददामि विश्वेभ्यस्त्वा वेदे-  
 भ्यः परिददामि सर्वेभ्यस्त्वा भूतेभ्यः परिददा-  
 म्यग्निष्ट्यै, इति । २१ ।

### करिडका २

आठ वर्ष के ब्राह्मण का यज्ञोपवीत करावे या गर्भ से  
 आठवें वर्ष में ॥१॥ ११ वर्ष के क्षत्रिय को । २ ॥ १२ वर्ष के वैश्य  
 को । ३ । या जैसा कुलाचार हो वैसा सब का । ४ । ब्राह्मणों  
 को भोजन करावे और बालक का शिर मुंडा कर मंडप में  
 लावे ॥ ५ ॥ अग्नि के पश्चिम भाग में बैठा कर "ब्रह्मच-  
 र्यमागाम्" ऐसा और "ब्रह्मचर्यसानि" बषधावे, कहावे ॥६॥  
 "येनेन्द्रायवृ०" इस मन्त्र से बालक को वस्त्र पहिनावे ॥ ७ ॥  
 "इयंदुक्तं" मन्त्र से नेखला तगड़ी बांधे ॥८॥ अथवा "युवा-

सुवासा०" इस मन्त्र से ॥ ९ ॥ या चुप के ही बाँधे ॥ १० ॥  
 (यज्ञोपवीतम्० इस मन्त्र से यज्ञोपवीत पहिनावे) फिर सृग-  
 चर्म देता यह मन्त्र पढ़े " मित्रस्य चक्षुः० " दंड देता है  
 ॥ ११ ॥ उस दंड को लेता हुआ यह मन्त्र पढ़े "योमेदंडः०"  
 ॥ १२ ॥ कोई आचार्य दीक्षा के समान दंड को "दीर्घसत्र-  
 को प्राप्त होता है" कह कर दंड को देते हैं । १३ । फिर इस  
 ब्रह्मचारी को अल्लुली को आचार्य अपनी अल्लुली से भरती  
 है । आपोहिष्ठा० इन ३ तीन मन्त्रों से ॥ १४ ॥

तक्षुः इस मन्त्र से पुनः इस को सूर्य दिखाता है । १५।  
 फिर इस का दक्षिण हृदय छूता है । "ममव्रते" इस मन्त्र से  
 १६। फिर इस का दक्षिण हाथ पकड़ कर आचार्य कही को  
 नामासि १७। शिष्य अपना नाम लेकर अहंभोः ३ ऐसे कही  
 १८। फिर इससे कही "कस्यब्रह्मचार्यसि" ऐसे १९। 'भवतः'  
 ऐसे शिष्य कही । ऐसा कहने पर "इन्द्रस्य ब्रह्म०" यह मंत्र  
 पढ़े । २० । फिर इसे पोषण करता है । " प्रजापतये० " इस  
 मन्त्र से ॥ २१ ॥

### कण्डिका ३

प्रदक्षिणमग्निं परीत्योपविशति । १ । अ-  
 न्वारब्ध आज्याहुतीहुत्वा प्राशनान्तेऽथैनं  
 थंशास्ति ' ब्रह्मचार्यस्यपोऽशान कर्म क्रुत्वा मा-  
 दिवा सुषुप्त्वा वाचं यच्छसमिधमाधेह्यपोऽशान,  
 इति । २ । अथाऽमै सावित्रीमन्वाहोत्तरतोऽग्नेः

प्रत्यङ्मुखायोपविष्टायापमन्नाय समीक्षमाणाय  
 समीक्षिताय । ३ । दक्षिणतस्तिष्ठन् आसीनाय  
 वैके । ४ । पच्छोऽर्द्धचशः सर्वाञ्च तृतीयेन सहानु-  
 वर्तयन् । ५ । सवत्सरे षाण्मास्ये चतुर्विंशत्यहे-  
 द्वादशाहे षडहेत्यहे वा । ६ । सद्यस्त्वेष गायत्रीं  
 ब्राह्मणायानुब्रूयात् 'आग्नयो वै ब्राह्मणः'  
 इति श्रुतेः । ७ । त्रिष्टुभश्चराजन्यस्य । ८ ।  
 जगतीं वैश्यस्य । ९ सर्वेषां वा गायत्रीम् । १० ।

ब्रह्मचारी अग्नि की परिक्रमा कर के बैठता है ॥१॥  
 ब्रह्मा से छूकर आचार्य होम कर प्राशन कराकर  
 उपदेश देवे कि तू ब्रह्मचारी है । आचमन कर सन्ध्यादि  
 नित्य कर्म कर । दिन में सत सो । वाणी को सम्भाल ।  
 अग्निहोत्र कर । भोजन से पूर्व आचमन कर । ऐसे १२ । फिर  
 इस के लिये गायत्री देवे । अग्नि से उत्तर में पूर्वाभिमुख  
 आचार्य के पास बैठा आचार्य को देखता हो आचार्य ब्रह्म-  
 चारी को देखता हो । ३ । अग्नि से दक्षिण में स्थित वा  
 बैठे को उपदेश करे कोई ऐसा मानते हैं । ४ । प्रथम वार  
 गायत्री का एक पाद । दूसरी वार दोपाद । तीसरी वार  
 सप्त गायत्री को साथ २ बुलवावे ॥५॥ यज्ञोपवीत से १ वर्ष  
 ६ मास, २४ दिन १२६ वा ३दिन पीछे उपदेश करे ॥६॥ जल्दी  
 ही उसी दिन गायत्री ब्राह्मण को पढ़ावे क्यों कि "ब्राह्मण-  
 अग्नि प्रधान है, ऐसी श्रुति है ॥ ७॥ त्रिष्टुप् क्षत्रिय का । ८ ।  
 जगती वैश्य का । ९ । यां सब का गायत्रीही (मन्त्र है) ॥१०॥

कण्डिका ४

अत्रः समिधाधानंम् । १ । पाणिनाऽग्निं  
परिसमूहति । अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं मा कुरु  
यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा अस्येवं मा सु-  
श्रवः सौश्रवसं कुरु । यथा त्वमग्ने देशानायज्ञ-  
स्य निधिपा अस्येवमहं मनुष्याणां वेदस्य नि-  
धिपोभूयासम्, इति । २ । प्रदक्षिणमग्निंपर्यु-  
क्ष्योत्तिष्ठन्तमिधमादधाति । अग्नये समिध-  
माहार्षं बृहतेजासवेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा  
समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया  
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन समिन्धे जीवपुत्रो ममा-  
घार्षोमेधाव्यहमसान्यनिराकरिष्ण्यंशस्वी तेज  
स्वी ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भूयासं स्वाहा, इति ।  
३ । एवं द्वितीयां तथा तृतीयाम् । ४ । एषा त  
इति वा समुच्चयो वा । ५ । पूर्ववत् परिसमूह-  
नपर्युक्षणे । ६ । पाणी प्रतप्य मुखं विमृष्टे 'त-  
नूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्या-  
युर्मदेहि वर्चादा अग्नेऽसि वर्चा मे देहि, अग्ने  
यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण । ७ । मेधां मे

देवः सविता मेधां देवी सरस्वती । मेधामश्विना  
देवावाधत्तां पुष्करस्त्रजौ, इति । ८ ।

यहां समिधा अग्नि में छोड़ता है । १ । ब्रह्मचारीहाथ से अग्नि को ( स्त्रुवे से ) समेटता है । “अग्ने सुश्रुव० ” इत्यादि मन्त्रों से ॥२॥ अग्नि के चारों ओर जल छिड़क कर खड़ा होकर समिधा धरता है । “अग्नये समि० ” इस मन्त्र से । ३ । ऐसे ही दूसरी तथा तीसरी समिद् भी ( लगावे ) । ४ । वा “ एषाते ” यजु० २ । १४ । इस मन्त्र से या एक ही बार तीनों समिधा लगावे ॥ ५ ॥ प्रथम कहे अनुसार अग्नि को समेटे और चारों ओर जल छिड़के ॥६॥ “तनूपाअग्ने०” ॥ ७ ॥ “मेधांमैदेवः” ॥ ८ ॥ इन दोनों मन्त्रों से दोनों हाथ तपाकर मुख से लगावे ॥

कण्डिका ५

अत्र भिक्षाचर्यचरणम् । १ । भवत्पूर्वा ब्राह्मणो भिक्षेत । २ । भवन्मध्यांश्चराजन्यः । ३ । भवदन्त्यां वैश्यः । ४ । तिस्रोऽप्रत्याख्याधिन्यः । ५ । षड् द्वादशाऽपरिमिता वा । ६ । मातरं प्रथमामेके । ७ । आचार्याय भैक्षं निवेदयित्वा वाग्यतोऽहःशेषं तिष्ठेदित्येके । ८ । अहिंश्चसन्नरण्यात् समिधआहृत्य तसिमन्नगती पूर्वषदाधाय वाचं विसृजते । ९ । अधः शाय्यक्षारल-

वणाशी स्यात् । १० । दण्डधारणमग्निपरिचरणं  
 गुरुसुश्रूषा भिक्षाचर्या । ११ । मधुमाथं समज्ज  
 नोपर्यासन स्त्रीगमनानृतादत्तादानानि वर्जयेत्  
 । १२ । अष्टचत्वारिंशद् वर्षाणि वेद ब्रह्मचर्यं  
 चरेत् । १३ । द्वादश द्वादश वा प्रतिवेदम् । १४।  
 यावद्ग्रहणं वा । १५ । वासा थं सि शाणक्षौ-  
 माधिकानि । १६ । ऐणेयमजिनमुत्तरीयं ब्राह्म-  
 णस्य । १७ । रीरवथं राजन्यस्य । १८ । आजं  
 गव्यं वा वैश्यस्य । १९ । सर्वेषां गव्यमसति  
 प्रधानत्वात् । २०। मौञ्जी रशना ब्राह्मणस्य । २१।  
 घनुर्ज्या राजन्यस्य । २२ । मौर्वं वैश्यस्य । २३ ।  
 मुञ्जाभावे कुशाश्मन्तकबल्वजानाम् । २४ ।  
 पालाशो ब्राह्मणस्य दण्डः । २५ । वैल्वो रा-  
 जन्यस्य । २६ । औदुम्बरो वैश्यस्य । २७ ।  
 सर्वे वा सर्वेषाम् । २८ । आचार्येणाहूत उ-  
 त्थाय प्रतिशृणुयात् । २९ । शयानं चेदासीन  
 आसीनं चेत् तिष्ठंस्तिष्ठन्तं चेदभिक्रामन्नभिक्रा-  
 मन्तं चेदभिधावन् । ३० । स एवं वर्तमानोऽमु-  
 प्राद्य वसत्यमुप्राद्य वसतीति तस्य स्नातकस्य



कीर्तिर्भवति । ३१ । त्रयः स्नातका भवन्ति  
 विद्यास्नातको व्रतस्नातको विद्याव्रतस्नातक  
 इति । ३२ । समाप्यवेदमसमाप्य व्रतं यः समा  
 वर्तते स विद्यास्नातकः । ३३ । समाप्यव्रतमस-  
 माप्य वेदं यः समावर्तते स व्रतस्नातकः । ३४ ।  
 उभयं समाप्य यः समावर्तते स विद्याव्रतस्ना-  
 तक इति । ३५ । आपोऽशुभाद् वर्षाद् ब्राह्मण-  
 स्यान्नीतः काली भवतीति । ३६ । आद्वावि-  
 षंशाद् राजन्यस्य । ३७ । आचतुर्विंशंशाद् वै-  
 श्यस्य । ३८ । अत ऊर्ध्वं पतितसावित्रीका  
 भवन्ति । ३९ । नैनानुपनयेयुर्नाध्यापयेयुर्नया-  
 जयेयुर्न चैभिर्व्यहरेयुः । ४० । कालातिक्रमे नि-  
 यतवत् । ४१ । त्रिपुरुषं पतितसावित्रीकाणां  
 सप्त्येऽसंस्कारो नाध्यापनं च । ४२ । तेषां  
 संस्कारेषु सर्वास्त्यस्तेऽग्नेष्ट्वा काममधीयीरन् त्वय-  
 हार्या भवन्तीति वचनात् ॥ ४३ ॥

यहाँ भिक्षा के आचार का कथन है ॥ १ ॥ भवत् शब्द  
 प्रथम बोलकर ब्राह्मण भिक्षा मांगे । २ । भवत् मध्य कह  
 क्षत्रिय । ३ । भवत् अन्त में कह वैश्य । ४ । यथा-आप भिक्षा  
 दीजिये ब्राह्मण । भिक्षा आप दीजिये, क्षत्रिय । भिक्षा दी-

जिये महाराज । ऐसे वैश्य मांगे । ( पूर्वदिन ) ऐसी तीन स्त्रियों से मांगे जो नकार न करें । ५ । छः या १२ से मांगे । ६ । कोई आचार्य प्रथम माता से मांगे ऐसा कहते हैं । ७ । आचार्य के सामने भिक्षा लाई भेटकर चुपचाप शेषदिन खड़ा रहे । यह किन्ही का मत है । ८ । हरे वृत्तों को न काट कर ( अहिंसासे ) सन्धिधा लावे । अग्नि में छोड़े वाणी को बोले मन्त्र पढ़े । ९ । भूमि पर सोवे, क्षार स्पर्श न खावे । १० । दग्ध रखे, अग्नि सेवा "गुरुसुश्रूषा" भिक्षाचर्या करे । ११ । भिक्षा में शहद और मांस न ले ( अर्थात् मांसाहारी जनों के घर से भिक्षा न ले ) बहुत स्नान, जंघे पर बैठना स्त्रियों का संग मिथ्याभाषण, विना दी हुई वस्तु लेना, यह वर्जित है । १२ । ४८ वर्ष तक वेदपढ़े ब्रह्मचर्य करे । १३ । १२।१२ वर्ष एक २ वेद पढ़े । १४ । याजवतक पढ़ सके । १५ । वस्त्र स्या, रेशम या ऊन के हों । १६ । ऐण्येय छाल ब्राह्मण को । १७ । रुक् कीक्षत्रिय को । १८ । अज वागी \* की वैश्य को । १९ । उक्त छाल न होंतौ सब गौकी ही रखें क्योंकि गौ प्रधान है । २० । मूज की तगड़ी ब्राह्मण को । २१ । क्षत्रिय की धनुष के ज्या डोरे की । २२ । वैश्योंको माले के बकल की । २३ । मूज न होतौ कुशा अत्रवत्त की बनावे । २४ । ढाक का दंड ब्राह्मण का । २५ । बेल का क्षत्रिय का । २६ । गूलर का वैश्य का । २७ । या सत्र दंड सत्र के । २८ । आचार्य के बुलाने पर उठकर सुने । २९ । साता हो तो बैठ कर । बैठे हों तो खड़े होकर । खड़े हों तो कुछ चलकर । चलते हों तो दौड़कर । ३० ।

\* इन ब्रह्मचारियों के ओढ़ने के वस्त्र पर उक्तचित्र बने हों जिससे ब्रह्मचारी के वस्त्र पर निशान मार्क समझ जावे (संपादक)

छात्र ऐसे रहता है यदि स्नातक ऐसे न रहे तो अपयश होता है । ३१ । तीन प्रकार के स्नातक होते हैं । विद्या स्नातक, व्रतस्नातक, विद्या व्रतस्नातक । ३२ । वेद समाप्त करके व्रतसमाप्त न करके वर्त्त वह विद्यास्नातक है । ३३ । व्रतसमाप्त कर वेद समाप्त न करके वर्त्त वह व्रतस्नातक है । ३४ । वेद और व्रत दोनों को समाप्त करे वह विद्याव्रत स्नातक है । ३५ । ब्राह्मण का १६ वर्ष तक अनतीतकाल होता है । ३६ । क्षत्रिय का २२ वर्ष तक । ३७ । वैश्य का २४ तक । ३८ । इस के बाद सावित्री से पतित हो जाते हैं । ३९ । न इन्हें यज्ञोपवीत दे न वेद पढ़ावे न यज्ञ करावे न इन से व्यवहार करे । ४० । समय बीतने पर श्रौत सूत्र में नियत किये अनादिष्ट प्रायश्चित्त करे । ४१ । जिन के ३ पीढ़ी तक सावित्री पतित हो जावें उन की सन्तान को न पढ़ावे । ४२ । वह यदि संस्कार चाहें तो ब्राह्मणस्तोम इष्टि करें तो भले ही पढ़ें व्यवहार योग्य होते हैं ऐसा वचन है ॥ ४३ ॥

कण्विका ६ ( समावर्तन संस्कार )

वेदऽसमाप्य स्नायात् । १ । ब्रह्मचर्यं वा-  
ऽष्टाचत्वारि ऽशकम् । २ । द्वादशकेऽप्येके  
। ३ । गुरुणानुज्ञातः । ४ । विधिर्विधेयस्त्कर्-  
श्चवेदः । ५ । षडङ्गमेके । ६ । न कल्पमात्रे  
। ७ । कामन्नु याज्ञिकस्य । ८ । उपसंगृह्य गुरु  
ऽलमिधोऽभ्याधाय परिश्रितस्योत्तरतः कुशेषु  
प्राग्गेषु पुरस्तात् स्थित्वाऽष्टानामुदकुम्भानाम्

। ९ । ये अस्वन्तरग्नयः प्रावष्टागोह्यउपगोहयो  
मयूखोमनोहाऽस्खलो विरुजस्तनूद्रषिरिन्द्रिय-  
हाअतितान्सृजामि । योरोचनस्तमिहगृह्णामि  
इत्येकस्मादपोऽगृहीत्वा । १० । तेनाभिषि-  
ञ्जते तेन 'मामाभिषिञ्जामि अत्रै यशसे ब्रह्मणे  
ब्रह्मवर्चसोयः इति । ११ । 'येन अत्रियमकृणुतां  
येनावमृशतां सुसुराम् । येनाक्षयावभ्यषिञ्जतां  
यद्वां तदश्विना यशः' इति । १२ । 'आपोहिष्टा',  
इति च प्रत्यूचम् । १३ । त्रिभिस्तूष्णीमितरैः  
। १४ । उदुत्तममितिमेखलामुन्मुच्य दण्डं निधा-  
य वासोऽन्यत् परिधायादित्यमुपतिष्ठते । १५ ।  
उद्यन् भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्विरस्यात् प्रातर्याव-  
भिरस्याद् दशसनिरसि दशसनिं मा कुर्वाविद-  
न्मागमय ॥ उद्यन् भ्राजभृष्णुरिन्द्रो मरुद्विर-  
स्याद् दिवायावभिरस्थाच्छतसनिरसि शतसनिं  
मा कुर्वाविदन्मागमय । उद्यन् भ्राजभृष्णुरिन्द्रो  
मरुद्विरस्यात् सायंयवभिरस्यात् सहस्रसनिरसि  
सहस्रसनिं मा कुर्वाविदन्मा गमय , इति ।  
। १६ । दधि तिलान्वा प्राश्य जटालोभनखानि  
संश्लिष्टयोदुम्बरेण दन्तान् घावेत् । अन्नाक्षाय

द्यू इध्वं ऽसोमो राजायमागमत् । स मे मुखं प्र-  
 माक्ष्यते यशसा च भगेन च, इति । १७ । उ-  
 त्साद्य पुनः स्नात्वाऽनुलेपनं नासिकयोर्मुखस्य  
 खोपगृह्णीते 'प्राणापानी मे तर्पय, चक्षुर्मै तर्प-  
 य, श्रोत्रं मे तर्पय, इति । १८ । 'पितरः शुन्ध-  
 ध्वम्, इति पाण्यो रवनेजनं दक्षिणा निपिच्या-  
 नुलिप्यजपेत् 'सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं सु-  
 वर्षी मुखेन । सुश्रुत् कर्णाभ्यां भूयासम्, इति  
 । १९ । अहतं वासो धीतं वाऽमैत्रेणाच्छादयेत्  
 'परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुस्वाय जरदाष्टि-  
 रस्मि । शतं च जीवामि शरदः पुरुचीरायस्पो-  
 षमभि संव्ययिष्ये, इति । २० । अथोत्तरीयम्  
 'यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्रा बृहरूपती  
 यशो भगश्च मा विदद् यशो मा प्रतिपद्य-  
 ताम्' इति । २१ । एकं चेत् पूर्वस्योत्तरवर्गेण  
 प्रच्छादयेत् । २२ । मुमनसः प्रतिगृह्णाति 'या  
 आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रि-  
 यायाता अहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च, इति । २३ ।  
 अथावबध्नीते' यद् यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार

त्रिपुलं पृथु। तन्न संग्रथिताः सुमनस आद्यधनामि-  
यशो मयि। इति । २४ । उष्णीषेण शिरो वेष्ट-  
यते ' युवा सुत्रासाः ' इति । २५ । ' अलंकर-  
णमांस, भूयाऽलंकरणं भूयान् इति कर्णवेष्टकौ  
। २६ । ' वृत्रस्य ' इत्यङ्क्ते अक्षिणी । २७ ।  
रोचिष्णुरसि' इत्यात्मानमादर्शं प्रेक्षते । २८ । छत्रं  
प्रतिगृह्णाति बृहस्पते श्छदिरसि पाप्मना मा  
मन्तर्धेहि' तेजसोयशसो माऽन्तर्धेहि' इति । २९ ।  
'प्रतिष्ठेस्थो विश्वतो मा पातम्' इत्युपानहौ प्रति  
मुञ्चते । ३० । ' विश्वाभ्यो मानाष्ट्राभ्यस्परिपाहि  
सर्वतः' इति वैणवं दण्डमादत्ते । ३१ । दन्त्रप्र-  
क्षालनादीनि नित्यमपि वास श्छत्रापानहश्चा-  
पूर्वाणि चेन्मन्त्रः ॥ ३२ ॥

वेद समाप्त करके स्नान करै (इसी लिये स्नातक कहते  
हैं) । १ । या ४८ वर्ष तक पढ़ के ही स्नातक हो । २ । कोई  
१२ वर्ष के पीछे ही स्नातक बनाते हैं । ३ । गुरु की आज्ञा  
पाकर ही । ४ । विधि विधेय वेद हैं । ५ । कोई ऋः अङ्गों को वेद  
कहते हैं । ६ । कल्पमात्र को नहीं । ७ ॥

जब यज्ञ के कर्म कराने वाले की इच्छा होतव ही स्नातक  
हो । ८ । ( विधिः ) आचार्य के चरण स्पर्श कर  
अग्नि में समिधा छोड़कर अग्नि से उत्तर की ओर अग्र  
भाग बिछाई कुशों पर ८ घड़े, जल के भरे हुवों से । ९ ।

“ ये अण्डसु० ” इस मन्त्र से एक घड़े का जल लेकर । १० । उस से अभिषेक करै । तेनाभि० इस मन्त्र से । ११ । फिर येन त्रियमकणु० इस से । १२ । फिर आपोहिष्टा० इन ३ मन्त्रों से ३ । ४ । ५ वें घड़े से । १३ । शेष ६ । ७ । ८ वें इन तीन घड़ों से सुप चाप अभिषेक करै । १४ । “ उदुत्तमम्० ” मन्त्र से तगड़ी छोड़ दे । दण्ड को धर कर अन्य वस्त्र पहिन कर सूर्य के सामने खड़ा होता है । १५ । “ उद्यन् आजि० ” इत्यादि मन्त्र पढ़ता है । १६ । दही वा तिल खाकर जंटा लोम नखों को कटाकर गूलर की दतीन से दान्त शुद्ध करै । “ अन्नाद्याय० ” ऐसे मन्त्र पढ़े । १७ । उवटन मलकर फिर स्नान करै “ प्राणा-पानी मे० ” उस मन्त्र से मुखनासा पर जन्दन लगावे ॥ १८ ॥ “ पितरः शुन्धध्वम् ” कहकर दाक्षिण को मुखकर दोनों हाथों से जल देकर चन्दन लगाता हुआ “ शुचस्ता० ” ऐसे जप करै । १९ । नवीन वस्त्र वा धुले वस्त्र धोती “ परिधास्यै० ” इस मन्त्र से पहिने । २० । “ यशसामा० ” इस मन्त्र से दुपट्टा ओढ़े । २१ । यदि १ ही धोती हो ती पहिले मन्त्र से आधी बांधले उत्तर मन्त्र से आधी ओढ़लेवे । २२ । “ या आहर उजमदग्निः० ” इस मन्त्र से आचार्य से पुष्प माला लेवे । २३ । “ यद्ध्यशो० ” इस मन्त्र में गले में पहिने । २४ । पगड़ी से शिर को लपेटता है “ युवासु० ” इस मन्त्र से । २५ । “ अलं करणमसि ” इस मन्त्र से कान लपेटे । २६ । “ वृत्रस्य० ” आंखों में अञ्जन डाले । २७ । “ रोषिष्णुरसि० ” इस मन्त्र से दर्पण देखे । २८ । कत्र लेता है “ वृहस्पते० ” इस मन्त्र से । २९ । “ प्रतिष्ठेस्थो० ” मन्त्र में जूता पहिने । ३० । “ विश्वाभ्यो० ” मन्त्र से वांस का दण्ड लेता है । ३१ । दन्तधावनादि वस्त्र बाता जूता जब २ नवीन पहिने तब २ मन्त्र पढ़े ॥ ३२ ॥

कण्डिका १ ( स्नातक के लिये यम ) ।

स्नातस्य यमान् वक्ष्यामः । १ । कामा-  
दितरः ॥ २ ॥ नृत्यगीतवादित्राणि न कुर्यान्न  
च गच्छेत् ॥ ३ ॥ कामं तु ' गीतं गायति वैव  
गीते वा रमते , इति श्रुतेर्ह्यपरम् । ४ । क्षेमे  
नक्तं ग्रामान्तरं न गच्छेन्न च धावेत् । ५ । उद-  
पानावेक्षण वृक्षारोहण फलप्रपतन सन्धिसर्पण  
विद्युत्स्नान विषमलङ्घन शुष्कवदन सन्ध्या-  
दित्यपेक्षण भैक्षणानि न कुर्यात् ' न ह वै  
स्नात्वा भिक्षेतापह वै स्नात्वा भिक्षां जयति  
इति श्रुतेः । ६ । वर्षत्यप्रावृत्तो व्रजेन 'अयं मे  
वज्रः पाप्मानमपहनत् ' इति । ७ । अस्वा-  
त्मानं नावेक्षेत् । ८ । अजातलोम्नीं विपुंसी-  
थं षण्डञ्च नोपहसेत् । ९ । गर्भिणी विजनन्ये-  
ति ब्रूयात् । १० । सकुलमिति नकुलम् ॥ ११ ॥  
भगालमिति कपालम् ॥ १२ ॥ मणिधनुरितीन्द्र  
धनुः ॥ १३ ॥ गां घयन्तीं परस्मै नाचक्षीत्  
॥ १४ ॥ उर्वरायामनन्तर्हितायां भूमावुत्सर्पंस्ति-  
ष्ठन्न मूत्र पुरीषे कुर्यात् ॥ १५ ॥ स्वयं विशार्गेन  
काष्ठेन प्रमृजीत् ॥ १६ ॥ विकृतं वासो नाच्छा-



दधीत ॥ १७ ॥ द्रढत्रती अधत्रः स्यात् सर्वत  
आत्मनं गोपायेत् सर्वेषां मित्र मित्र ॥१८॥ ७ ॥

### कण्डिका ७

अर्थ—स्नातक के यम कहते हैं । १ । इन यमों को अन्य पुरुष भी चाहे ती पालन करै । २ । नाचना, गाना, बजाना न स्वयं करै न इन कार्यों में जावे । ३ । “ गीतं गायति० ” “गीत गाता है वा गीत से प्रसन्न होता है” यह श्रुति है इस से सामवेद गानामात्र चाहे ती दोष नहीं । ४ । बिना आपत्ति समय के रात में दूसरे ग्राम में न जावे न दौड़े । ५ । कूप कांकना वृक्षों पर चढ़ना फल झाड़ना नस चटकाना, नग्न-स्नानकुंघे नीचे में कूदना कठोर भाषण, उदय अस्त होते सूर्य का देखना और भिक्षा मांगना यह कर्म न करै । “नह-वै० शतपथ १० । ३ । ३ । ७ भिक्षा वर्जित है । ६ । वर्षा में भी छत्र न लगावे । अयं में सन्न पढ़ता हुआ । ७ । पानी में मुख न देखे । ८ । जब तक रोम न आये हों ऐसी वाला स्त्री और नपुंसक से उपहास=हंसी न करै ( विवाह न करै यह तात्पर्य है । ) । ९ । गर्भिणी स्त्री को विजन्या कह कर बोले । १० । मौले को नकुल न कह सकुल कहै । ११ । कपाल को भगाल । १२ । इन्द्र धनु को मणि धनुष कहै । १२। बछड़े को बुंखाती गौ को किसी को न बतावे । १४ । जमे हुवे या क्षुये हुवे खेत में या चलते २ या खड़े २ विप्रा सूत्र न करै । १५ । स्वयं गिरी हुई लकड़ी से गुद को पौछे ( फिर नहीं जल में शूद्र करै ) । १६ । बिगड़ा ( विकृत ) वस्त्र न ओढ़े । १७ । दूढ़ प्रतिष्ठ रक्षक सब का मित्र हो ॥ १८ ॥

कण्डिका ८ (स्नातक के व्रत) प्रतिज्ञ

तिस्रो रात्रोर्व्रतं चरेत् । १ । \* अमाश्रुसा-  
शयमृणमयपायी । २ । स्त्रीशूद्रशषकृष्णशकुनि  
शुनांश्चादर्शनमसम्भाषा च तैः । ३ । शवशूद्र-  
सूतकान्नानि च नादात् । ४ । मूत्रपुरीषेष्टीवनं  
चातपे न कुर्यात् सूर्याञ्चात्मानं नान्तर्दधीत् । ५ ।  
सप्तेनोदकार्यान् कुर्वीत । ६ । अवज्योत्य रात्रौ  
भोजनम् । ७ । सत्यवदनमेव वा । ८ । दीक्षितो-  
प्यात्तपादीनि कुर्यात् प्रथगर्यवांश्चेत् । ९ ॥

कण्डिका ८

समावर्तन से तीन राततक व्रतकरै । मांस न खावे और मही  
के पात्र में पानी न पीवे । स्त्री, शूद्र, शव, काले पत्नी, कुत्ता  
इनको न देखे न इन से बोले । ३ । शव शूद्र और सूतक का  
अन्न न खावे । ४ । धूप में मूत्र विष्टा धूकना न करै छत्री

यह समस्त कण्डिका ही प्रतिज्ञ प्रतीत होती है । जब  
कं० ७ में स्नातक के निमस कह चुके थे तब उसी में यह  
सूत्र भी धर देते । मांस का मास=उड़द अर्थ भी कर दिया  
तो क्या मही के पात्र में भोजन क्यों न करै । गर्म जल  
से स्नानादि सभी क्रिया अंड बरड हैं । यमो के वर्णन में  
पहले ही " यमान् ब्रह्मामः " ऐसी प्रतिज्ञा है आगे पीछे  
सभी कण्डिकाओं के आरम्भ में प्रतिज्ञा हैं इस कं० में कोई  
प्रतिज्ञा भी नहीं है ॥

धूपमें भी न लगावे । ५ । गरम जल से स्नान संन्धादि करे । ६ । रात्रि की दीपक जलाकर भोजन करे । ७ । अथवा सब नियमों के बदले सत्य भाषण ही करे । ८ । दीक्षित समर्थ हो तौ उक्त नियम करे ॥ ९ ॥

कथिहका ९

अथातः पञ्चमहायज्ञाः । १ । वैश्वदेवाद-  
न्नात् पर्युक्ष्य स्वाहाकारैर्जुहुयाद् ब्रह्मणे प्रजा-  
पतये गृह्याभ्यः । कश्यपायानमतय इति । २ ।  
भूतगृह्येभ्यो मणिके त्रीन् पर्जन्यायाद्भ्यः पृथि-  
व्यै । ३ । धात्रे विधात्रे च द्वार्ययोः । ४ । प्रति  
दिशां वायवे दिशां च । ५ । मध्ये त्रीन् ब्रह्म-  
णोऽन्तरिक्षाय सूर्याय । ६ । विश्वेभ्यो देवेभ्यो  
विश्वेभ्यश्च भूतेभ्यस्तेषामुत्तरतः । ७ । उषसे  
भूतानां च पतये परम् । ८ । पितृभ्यः स्वघा-  
नम इति दक्षिणतः । ९ । पात्रं निर्णिज्योत्तरा  
परस्यां दिशि नितयेत् 'यक्ष्मैतत्ते, इति । १० ।  
उद्धृत्योग्रं ब्राह्मणागावनेज्य दद्यात् 'हन्तते,  
इति । ११ । यथार्हमिक्ष कानतिथींश्च सम्भ-  
जैरन् । १२ । बालज्यैश्चा गृह्या यथार्हमश्नीयुः  
। १३ । पश्चात् गृहपतिः पत्नी च । १४ । पूर्वा वा

गृहपतिः तस्मादुस्वादिष्टं गृहपतिः पूर्वोऽतिथि-  
भ्योऽश्नीयाद्, इति श्रुते । १५ । अहरहः स्वाहा  
कुर्यादस्नाभावे केनचिदाकांष्ठाद्देवेभ्यः पितृभ्यां  
भनुष्येभ्य श्रोदपात्रात् । १६ ॥९॥

काण्डिका ९

अब आगे पञ्चयज्ञ हैं । १ । वैश्वदेव के अन्न से पर्युक्षण  
कर स्वाहा शब्द लगाकर ब्रह्मणे, प्रजापतये, गृह्याभ्यः, ऋषय-  
पाय, अनुमतये, इन का होम करै । २। पर्जन्यायनमः, अद्भ्यो  
नमः पृथिव्यैनमः ऐसे ३ बलि देवे । ३ धात्रे, विधात्रे, और  
ह्यार्ययोः नमः कह बलि दे । ४ । पूर्वोदि दिशाओं में  
दिशाओं को वायवे स्वाहा कह कर बलि धरे । ५ । मध्यमे  
३ बलि ब्रह्मणे स्वा० । अन्तरिक्षाय स्वाहा सूर्याय स्वा० । ६ ।  
उत्तर में विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा० विश्वेभ्यो भूतेभ्यः । ७ ।  
उप से आगे उपसे० और भूतानाम् पतये स्वाहा नमः । ८ ।  
पितृभ्यः स्वधानमः ऐसे कह कर दक्षिण में । । ९ । पात्र को  
धीकर उत्तर की ओर संघादे “ यद्वसैतत्ते ” यह कहै । १० ।  
हन्तते कहकर, ब्राह्मण के आगे भोजन देवे । ११ । यथायोग्य  
भिक्षुकों को अतिथियों को भी देवे । १२। घर के बालक नछे-  
सब यथायोग्य भोजन करै । १३ । फिर गृहपति और उसकी  
पत्नी भी भोजन करै । १४। या पहले गृहपति खावे पीछे पत्नी  
खावे । क्योंकि अतिथि पूर्व जिमाकर पहिले गृहपति खावे यह  
श्रुत है । १५। नित्य २ होम करे । अन्न न होतौ किसी सन्निधा-  
से ही देवों मनुष्यों पितरों को जल के पात्र से प्रसन्न करै १६

कण्डिका १० (अध्ययनारम्भ) ।

अथातोऽध्यायोपाकर्म । १ । ओषधीनां  
 प्रादुर्भावे श्रवणेन श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रा-  
 वणस्य पञ्चमीं हस्तेन वा । २ । आज्यभागा-  
 विष्टाऽऽज्याहुतीर्जुहोति । ३ । 'पृथिव्या अग्नये,  
 इत्यग्नेवेदे । ४ । अन्तरिक्षाय वायवे, इति यजु-  
 र्वेदे । ५ । 'दिवे सूर्याय, इति सामवेदे । ६ ।  
 'दिव्यंश्चन्द्रमसे, इत्यथर्ववेदे । ७ । 'ब्रह्मणे छन्दो-  
 भ्यश्च, इति सर्वत्र । ८ । प्रजापतये देवेभ्य ऋ-  
 षिभ्यः श्रद्धायै मेधायै सदस्पतयेऽनुमतये इति  
 च । ९ । एतदेवव्रतादेशन विसर्गेषु । १० ।  
 सदसस्पतिम्, इत्यक्षतघानास्त्रिः । ११ । सर्वेऽनु-  
 पठेयुः । १२ । हुत्वाहुत्वीदुम्बयस्त्रिस्तिस्रः  
 समिध आदध्वुरार्द्रा सपलाशा घृताक्ताः सा-  
 वित्र्या । १३ । ब्रह्मचारिणश्च पूर्वकल्पेन । १४ ।  
 शक्तो भवन्तु, इत्यक्षतघाना अखादन्तः, प्रा-  
 शनीयुः । १५ ।, दधिक्रावणे, इति भक्षयेयुः  
 । १६ । स यावन्तं गणमिच्छेत् तावन्तस्त्रिस्तिस्रः-  
 कर्षफलके जुहुयात् सावित्र्या 'शुक्र उयोतिः,  
 इत्यनुवाकेन वा । १७ । प्राशनान्ते प्रत्यह्मुखे-

भ्य उपविष्टेभ्य ओंकारमुक्त्वा त्रिश्रस्रावित्रिम-  
ध्यायादीन् प्रब्रूयात् । १८ । ऋषिमुखानि ब्रह्म-  
चानाम् । १९ । पर्वणि छन्दोगानाम् । २० । सूक्तान्य-  
थर्वणाम् । २१ । सर्वे जपन्ति 'सहनोऽस्तु सहनो-  
ऽवतु सह न इदं वीर्यवदस्तु ब्रह्म । इन्द्रस्तद्वेद येन  
यथा न विद्विषामहे, इति । २२ । त्रिरात्रं नाधी-  
योरन् । २३ । लोमनखानामनिकृन्तनम् । २४ ।  
एके प्रागुत्सगति । २५ ।

कण्डिका १०

अब पढ़ने का कर्म कहते हैं । १। ओषधियों के उगने पर  
अवण नक्षत्र युक्त श्रावणी पूर्णिमा को वा श्रावण की पञ्चमी  
हस्त नक्षत्र से युक्त हो । २। आष्यभागाहुति करके आज्याहुति  
देना है । ३। पृथिव्यै स्वा० अग्नये स्वाहा यह ऋग्वेद पाठ  
में । ४। अन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा यह यजुर्वेद पढ़ने  
में । ५। दिवे स्वा० सूर्याय स्वा० यह सामवेद में । ६। देव्यः स्वा० चन्द्र-  
मसे स्वाहा ऐसा अथर्व वेद में । ७। ब्रह्मणे स्वा० और छन्दोभ्यः  
स्वाहा यह सब वेदों में । ८। प्रजापतये । देवेभ्यः । ऋषिभ्यः ।  
अद्वायै, मेधायै, सदसस्पतये, अनुमतये ( स्वाहा लगाकर )  
। ९। ऐसे ही ब्रह्मोपवीत और सुभावर्तनों में करै । १०। सद-  
सस्पति० ( य० ३१ । १३ ) मन्त्र से चावलों की खील से  
आचार्य ३ आहुति देवे । ११। मन्त्र सब शिष्य साथ पढ़ें  
। १२। होम कर करके गूलर की ३ । ३। अग्निधा पत्तों सहित

गीली घृत में भिगी कर गायत्री पढ़कर लेवे । १६ । आचार्य  
के साथ २ ब्रह्मचारी भी होमें । १४ ।

कण्डिका ११ ( अतध्याय प्रकरण ) ।

वातेऽमावास्यायां सर्वानध्यायः । १ । आह्वा-  
शनेचोल्काऽत्ररूपूर्जदुभूमिचलनागन्यत्पातेष्वृतु  
सन्धिपुषा कालात् । १ । उत्सृष्टेष्वभ्रदर्शनेसर्वरूपे  
त्रत्रिरात्रं त्रिसन्ध्यं वा । ३ । भुक्त्याऽऽर्द्रपाणि  
रुदा के निशायां सन्धिबेलयोरन्तः शत्रेग्रामेऽन्त  
र्दिवाकीर्त्ये । ४ । धावतोऽभिशस्तपतितदर्शना-  
श्चार्याभ्युदयेषु च तत्कालम् । ५ । नीहारे वादित्र  
शब्द ज्ञातस्वने ग्रामान्ते श्मशाने श्वर्गर्दमोलूक  
शृगालधामशब्देषु शिष्टाचरिते च तत्कालम् । ६ ।  
गुरौ प्रेतेऽपोऽभ्यवेवाह्, दशरात्रं चोपरमेत् । ७ ।  
सतानूनग्निणि स ब्रह्मचारिणि च त्रिरात्रम् । ८ । एक  
रात्रमस ब्रह्मचारिणि । ९ । अर्द्धषष्ठान् मासानधी  
त्योत्सृजेयुः । १० । अर्द्धसप्तमान्वा । ११ । अथेमा मृचं  
जंपन्ति 'उभा कवी युवा यो नो धर्मः परापतत् ।  
परिसख्यस्य धर्मणो विसरयानि विसृजामहे,  
इति । १२ । त्रिरात्रं सहोष्य त्रिपप्रतिष्ठेरन् । १३ ।

कण्डिका ११

: अतिवायु चलते दिन और सब अमावसीं को छुड़ी है । ११

आहु भोजन \* उत्कापात बादल गर्जने पर भूमि को प अग्नि पड़ौस में लगने पर ऋतु परिवर्तन के दिन १ । १ दिन छुट्टी हों । २ । वेद समाप्ति और जब समस्त दिन मेघदर्शन न हो तीन रात या ३ सन्ध्या का अनध्याय हो । ३। भोजन के पीछे यावत् भीगे हाथ रहें । जल में नौका पर बैठे रात में, सायं प्रातः सन्ध्या के समय, ग्राम में मुर्दा पड़ा हो ॥ या दिवा कीर्त्ति=कोई चाण्हाल पास हो तब तक वेद न पढ़े । छुट्टी है । दौड़ते पाखण्डी, पतित के देखते हुवे । आश्चर्य देखने के समय (उसी समय तक) वेद न पढ़े । ५। कुहरा, वर्षते बाजा बजते, हा हा कार में, सिवाने पर प्रमथान में, कुत्ते गधे उल्लू गंदड़ खोलते में, सामवेद के, गाते समय और किसी सज्जन के आने पर उस समय न पढ़े । ६। गुरु के मरने पर जल में स्नान करे और १० दिन तक पठनवन्द करे । ७। सोमयात्री ऋत्विज के और ब्रह्मचारी सहाध्यायी के मरने पर ३ दिन । ८। अ ब्रह्मचारी सहाध्यायी की मृत्यु पर १ दिन अनध्याय करे । ९। साढे छः मास पढ़कर छुट्टी करे ( वेद की ) १० या ७॥ मास । ११। फिर गुरु शिष्य साथ इस ऋचा को धरें “ उभाकवी० ” । १२। तीन रात गुरुकुल में छुट्टी मनाकर अलग हो जावे । १३ ।

काण्डिका १२ ( उत्सर्ग कर्म )

पौषस्य रोहिण्यां मध्यमायां वाऽष्टकाया-  
मध्याधुत्सृजेरन् । १ । उदकान्तं गत्वाद्भिर्दे-  
वांश्छन्दांश्चिन्वेदानृषीन्पुराणाचार्यान्संवत्सरं

\* जिस दिन बहुत श्रद्धा से प्रीति भोजादि हुवा हो उस उस दिन अधिक खाया जाता है ॥



च-सावयव पितृनाचागान् स्वांश्चतर्पयेयुः । १ ।  
सावित्रीं चतुरनुद्रुत्य विरताः स्म'इति प्रब्रूयुः । ३ ।  
क्षपणं प्रञ्चनं च पूर्ववत् । ४ ।

कण्डिका १२

पौष के रोहिणी मन्त्र में या मावस या अहमी को पढ़ना छोड़ दे । १ । जलाशय पर जा के जल से देवतों छन्दों, वेदों, ऋषियों, पुराणाचार्यों, गन्धर्वों, अन्यआचार्यों संवत्सर को और महीनों को । पितरो=ऋतुओं को अपने आचार्यों को भी वृत्त करें । २ । गायत्री चार बार पढ़ कर "विरताः स्म" ऐसे कहै । दूसरे आकर पूर्व के समान किए पढ़े तब अनध्याय करे । ४ ।

कण्डिका १३ ( प्रथम हल योजन )

पुण्याहे लाङ्गलयोजनं ज्येष्ठया वेन्द्रदैव-  
त्यम् । १ । इन्द्रं पर्जन्यमश्विनौ मरुत उदला-  
काशयपथं, स्वातिकारीं सीतानुमतिं दध्ना तण्डुलै  
गन्धैरक्षतैर्गिष्ठाऽनडुहो मधुघृते प्राशयेत् । २ ।  
'सीरायुञ्जन्ति, इति योजयेत् । ३ । 'शुनं सुफालाः,  
इति कृषेत् फालं वाऽऽलभेत । ४ । नवांगन्युपदेशाद्  
वपनानुषङ्गाच्च । ५ । अग्रयमभिषिक्त्याकृष्टं तदाकृ-  
षेयुः । ६ । स्थालीपाकस्य पूर्ववद्देवता यजेदुभयो-  
र्ब्राह्मियवयोः प्रवपन्तृकीतायज्ञे च । ७ । तते ब्राह्म-  
णभोजनम् । ८ ॥

कण्डिका १३

पवित्र दिन हल जोते । इन्द्र देवता के उथेष्टा नक्षत्र में । १ । इन्द्र, पर्जन्य, अश्विनी दानों मरुत् उदल काश्यप, स्वातिकारी सीता और अनुमति को दही चावल सुगन्धों और जौ से आहुति देकर अनुद्ध हल को चृत मीठा चटावे । २ । सीरा युंजन्ति० य० १२ । ६७ मन्त्र पढ़कर हल जोड़े । ३ । शुन-थुसुफालाः य० १२ । ६९ इस से फाली को ठीक करे या जोते । ४ । या अग्नि में आहुति देते समय ही इन मन्त्रों को पढ़े हल जोड़ते जाते समय न पढ़े । ५ ॥ बिना जते खेत में हल जोते और उत्तम बेलको उस दिन पहिले पानी से साफ करले । ६ । जब २ धान जौ आदि बोने हों तभी पूवं कहे देवों को स्थाली पाक से होम करे । और सीता यज्ञ में भी । ७ । फिर ब्राह्मण जिनावे । ८ ॥ १३ ॥

कण्डिका १४ ( श्रवणा कर्म ) ।

अथातः श्रवणा कर्म । १ । श्रावण्यां पौर्ण-  
मास्याम् । २ । स्थालीपाकं अपयित्वाऽक्षतधा-  
नाश्चैककपालं पुरे।डाशं धानानां भूयसीः पिष्ट्वा-  
ऽऽज्यभागांश्चिष्ट्वाऽऽज्याहुमीजुहोति । ३ । अपश्चेत-  
पदा जहि पूर्वैण चापरेण च सप्तचवारुणीरिमाः  
प्रजाः सर्वाश्च राजान्ध्रवैः स्वाहा । ४ । नवै श्वेतस्या-  
ध्याचारेऽहिददर्शं कञ्चन । श्वेताय वैदव्याय नमः  
स्वाहा इति । ५ । स्थालीपाकस्य जुहोति विष्णवे,  
श्रवणाय, श्रावण्यै पौर्णमास्यै, वर्षाभ्यश्चेति । ६ ।

धानावन्तमिति धानानाम्।७। धृता क्तान् सक्तून्  
 सर्पैभ्यो जहोति ।८। आग्नेय पाण्डुपार्थिवानां  
 सर्पाणामधिपतये स्वाहा, श्वेतवायवान्तरिक्षा-  
 णां सर्पाणामधिपतये स्वाहा, इति।९। सर्वहुत मेक  
 कपालं ध्रुवाय भीमाय स्वाहा' इति ।१०। प्राशनान्ते सक्तूना-  
 नेकदेशं शूर्पेन्युप्योपनिष्कम्य बहिः शालाभ्याः स्थण्डिलमुप-  
 लिप्योरुकायां प्रथमाणायां नाऽन्तरागमत' इत्युक्त्वा वाग्यतः  
 सर्पानवनेजयति । ११ । आग्नेय पाण्डुपार्थिवानां सर्पाणा-  
 मधिपतयेऽवने निहव, श्वेत वायवान्तरिक्षाणां सर्पाणामधि-  
 पतेऽवने निहव, अभिभूः सौर्यदिव्यानां सर्पाणामधिपतेऽव-  
 ने निहव' इति । १२। यथाऽवनिक्तं दर्व्यावघातं सक्तून् सर्पैभ्यो  
 बलिं हरति । १३ । आग्नेय पाण्डुपार्थिवानां सर्पाणा  
 मधिपते एषते बलिः, श्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पानधि-  
 पत एषते बलिः, अभिभूः सौर्यदिव्यानां सर्पाणामधिपत  
 एषते बलिः' इति । १४ । अवनेत्य पूर्ववत् कङ्कतैः प्रलिखति  
 । १५ । आग्नेयपाण्डुपार्थिवानां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व  
 श्वेतवायवान्तरिक्षाणां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व, अभिभूः  
 सौर्यदिव्यां सर्पाणामधिपते प्रलिखस्व' इति । १६। अल्ल-  
 नानुलेपनं स्रजश्चाञ्जलानुलिम्पस्व स्रजोऽपिनह्यस्व, इति  
 । १७। सक्तुशेषं स्थण्डिले न्युप्योदपात्रेणोपनिनीयोपतिष्ठते  
 'ननोऽस्तु सर्पैभ्यः, इति तिसृभिः । १८ । स यावत् कामयेत  
 ' न सर्पा अभ्युपेयुरिति तावत् सन्ततयोदधारया निवेशनं  
 त्रिः परिषिञ्चन्परीयात् ' अपश्वेत पदा जहीति ' द्वाभ्याम्  
 । १९ । दर्वीशूर्पं प्रक्षाल्य प्रतप्य प्रयच्छति । २० । द्वारदेशे

मार्जयन्तः 'नापोहिष्ठा, इति तिसृभिः । २१। अनुगुप्तमेत  
सक्तुशेषं निधाय ततोऽस्तमितेऽस्तमिते ऽग्निं परिचर्य दर्व्यो  
पघातं सस्तून् सर्पेभ्यो बलिं हस्तेदाद्यहायगयाः । २२। त  
हरन्तं नान्तरेण गच्छेयुः । २३। दर्व्याचमनं प्रक्षाल्य निद-  
धाति । २४। धानाः प्राश्नन्त्यस्य स्यूताः । २५। ततो ब्राह्मण  
भोजनम् । २६। १४ ॥

### कण्डिका १४ का भाषार्थ

अब आगे श्रवणा कर्म है । १। श्रावणी पीर्णिमा में । २। स्थाली  
पाक पकाकर सत्तूरे जौ की खील कुछ सत्तू जौ के और  
पुरोडाश बनावे, दो आज्य भाग होमे । आहुत्याहुति देता  
है । ३। अपश्वेतपदा० । ४। नवैश्वेतस्या० । ५। इन से  
आहुति देकर स्थालीपाक से होमे । विंषणवे, श्रवणाय,  
श्रावण्यै, पीर्णिमास्यै, वर्षाभ्यः इत्यादि स्वाहान्त आहुति दे  
। ६। धानावन्तम् ( य० २० । २९ ) से खीलों को होमे घी  
मिलाकर सत्तुओं से सर्पों के लिये होम करे । ७। अग्नेयः  
आदि मन्त्रों से आहुति दे । ८। ध्रुवाय भौमाय स्वाहा  
कह कर कपाल में बनाये पुरोडाश को समस्त १ आहुति  
देवे । १०। संश्रव प्राशन कर कुछेक सत्तू ब्राज में धर बाहर  
आकर । शाला के बाहर चौतरी=स्थंडिल को लीप कर  
जलती लकड़ी धर कर " नाअन्तरा गमत " ऐसे कह चुप  
हो सर्पों को जल देता है । इत्यादि कृत्य प्रक्षिप्त प्रतीत  
होता है । अतः भाषार्थ नहीं किया ॥

### काण्डिका १५ ( इन्द्रयज्ञ )

प्रौष्ठपदामिन्द्रयज्ञः । १। पायसमैन्द्र०

श्रपयित्वा ऽपूपांश्चापूपैः स्तीर्त्वाऽऽज्यभागावि-  
 द्वाऽऽज्याहुतीजुहीतीन्द्रायेन्द्राख्या अजायैकपदे-  
 ऽह्विर्बुध्न्याथ प्रौष्ठपदाभ्यश्नेति । २ । प्राशनान्ते  
 मरुद्वयोर्बलिष्ठंहरात् 'अहुतादो मरुतः', इति श्रुतेः  
 ।३। आश्वत्थेषु पलाशेषु 'मरुतो ऽश्वत्थे तस्थुः,  
 इति वचनात् ।४। 'शुक्रज्योतिः इति प्रतिमन्त्रम्  
 ।५। विमुखेन च ।६। मनसा ।७। 'नामान्येषामेतानि,  
 इति श्रुतेः । ८ । इन्द्र देवीः, इति जपति । ९ ।  
 ततो ब्राह्मण भोजनम् । १० । १५ ॥

#### १५ कण्डिका

मादों की पूर्णिमा को इन्द्रयज्ञ होता है । १ । इन्द्र को खीर और पूड़े पकाकर ४ पूड़े अग्नि के चारों ओर धरे । आज्यभाग २ आहुति दे । इन्द्राय, इन्द्रायै, अजाय, एक पदे, अह्विर्बुध्न्याय, प्रौष्ठपदाभ्यः, स्वाहान्त कह आहुति दे । २। प्राशन के पीछे मरुतों को बलि देता है । अहुत खाने वाले मरुत हैं यह श्रुति है । पीपल के पत्तों पर बलि दे । मरुत ( हवा ) पीपल पर रहता है । ३। शुक्र ज्योति इत्यादि मन्त्रों से आहुति दे । ४ । तथा विमुख से भी । ५ । मन से मन्त्र पढ़कर । ६ । यह मरुत के नाम हैं यह श्रुति है । ७ । "इन्द्र देवीः" इह मन्त्र को जपता है ८। फिर ब्राह्मण भोजन करावे १०

#### कण्डिका १६ (पृषातक कर्म)

आश्वयुज्यां पृषातकाः । १ । पावसमैन्द्र ७

अपयित्वा दधिमधुघृतमिश्रं जुहे।तान्द्राय  
 न्द्राण्या अश्विभ्यामाश्वयुज्यै पौर्णिमास्यै शरदे  
 चेति । २ । प्राशनान्ते दधिपृषात क्रमञ्जनि  
 जुहोति ' ऊनं मे पूर्यता पूणं मे मोव्यगात्  
 स्वाहा इति । ३ । दाधमधुघृतमिश्रममात्या  
 अवेक्षन्त ' आयात्विन्द्रः , इत्थनुवाकेन । ४ ।  
 मातृभिर्वत्सान्सथ्सृज्यतां रात्रिमाग्रहायणीं  
 च । ५ । ततो ब्राह्मणभोजनम् । ६ । १६॥

१६ कण्डिका

आश्विन की पूर्णिमा को पृषातक यज्ञ है । १ । इन्द्र  
 को खीर पकाकर दही शहद धी मिलाकर होमता है इन्द्राय  
 इन्द्राण्यै, अश्विभ्यां, आश्वयुज्यै, पौर्णिमास्यै और शरदे,  
 स्वाहा कह होमे । २ । प्राशनान्त में पृषातक को दोनों हाथों  
 से होमे । ऊनं मे० इस मन्त्र से । ३ । दही मधु घृत खीर  
 में मिलाकर मित्रजन देखें । "आयात्विन्द्रः" (य० २० । १७)  
 इस अनुवाक से होम करे । ४ । उस असीज की रात में  
 माताओं (गौओं) से बहड़े मिलावे । ५ । फिर ब्रह्मभोज करे ।

कण्डिका १७ ( सीतायज्ञ )

अथ सीतायज्ञः । १ । ब्रीहियवानां यत्र  
 यत्र गजेत तन्मयथ्स्थालीपाकं श्रपयेत् । २ ।  
 कामादीजानोऽन्यत्रापि ब्रीहियवथोरेवान्यतरं  
 श्रपयेत् । ३ । न पूर्वघोदित-

त्वात् सग्देहः । ४ । असम्भवाद्द्विनिवृत्तिः । ५ ।  
 क्षेत्रस्यपुरस्तादुत्तरतो वा शुची देशे कृष्टे फ-  
 लानुपरोधेन । ६ । ग्रामे वोभयसम्प्रयोगादवि-  
 रोधात् । ७ । यत्र अपयिष्यन्नुपलिप्त उद्भुतावो  
 क्षितेऽग्निमुपसमाधाय तन्मिश्रैर्दभैः स्तीर्त्वाऽऽ-  
 ज्यभागा विष्टाऽऽज्याहुतीजुहोति । ८ । पृथिवी  
 स्त्रीः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युभिरावृताः । तमि  
 हेन्द्र मुपहृये शिवानः सन्तु हेतयः स्वाहा ॥  
 यन्मेकिञ्चिदुपेप्सितमस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् ।  
 तन्मे सर्वं ॐ समृध्यतां जीवतः शरदः शतं  
 स्वाहा । सम्पत्तिर्भूतिर्भूमिर्वृष्टिर्ज्यैष्ठ्यं ॐ श्रैष्ठ्यं  
 ॐ श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा । यस्याऽभावे  
 वैदिक लौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् । इन्द्र  
 पत्नीमुपवहये सीतां सा मे त्वनपायिनी  
 भूयात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा । अश्रवावतीगोमती  
 सूनृतावती विभार्ति या प्राणभृता अतन्द्रिता ।  
 खलामालिनी मुर्वरामस्मिन् कर्मण्युपवहये ध्रुवा  
 ॐ सा मे त्वनपायिनी भूयात् स्वाहेति । ९ ।  
 स्थालीपाकस्य जुहोति सीतायै जयायै शमायै  
 भूत्या इति । १० । मन्त्रवत् प्रदानमेकेषाम् । ११ ।

स्थाहाकारप्रदाना इति श्रुतेर्विनिवृत्तिः । १२ ।  
 स्तरणशेष कुशेषु सीतागोप्तृभ्यो बलिं हरति  
 पुरस्ताद् ये त आसते सुधन्वानो निषङ्गिनः ।  
 ते त्वा पुरस्ताद् गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो  
 नम एषां करोम्यहं बलिमेभ्यो हरामीममिति ।  
 १३ । अथ दक्षिणद्वेऽनिमिषा वर्मिण आसते  
 ते त्वा दक्षिणतो गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो  
 नम एषां करोम्यहं बलिमेभ्यो हरामीममिति ।  
 १४ । अथ पश्चात् आभुवः प्रभुवो भूतिभूमिः  
 पाष्णिः शुनद् कुरिः । ते त्वा पश्चाद् गोपा-  
 यन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो नम एषां करोम्यहं  
 बलिमेभ्यो हरामीममिति । १५ । अथोत्तरतो भीमा  
 वायुसमा जवे ते त्वोत्तरतः क्षेत्रे खले गृहेऽध्वनि  
 गोपायन्त्वप्रमत्ता अनपायिनो नम एषां करो  
 म्यहं बलिमेभ्यो हरामीममिति । १६ । प्रकृता-  
 दन्घस्मादाज्यशेषेण च पूर्वबहुबलिकर्म । १७ ।  
 स्त्रियश्चोपयजेरन्नाचरितत्वात् । १८ । सः स्थिते  
 कर्मणि ब्राह्मणान् भोजयेत् ब्राह्मणान् भोज-  
 येत् । १९ ॥ १७ ॥ हस्तिद्वितीयकाण्डम् सप्तमम् ॥



## कारिका १७

अथ सीता यज्ञ है । १ । धान या जघ जिस का करे लमी का ( स्थालीपाक ) षट्कोई में शान बनावे । २ । भले ही चाहे ग्रन्थ ग्रामों में भी जी या धान किसी एक का भात बनावे । ३ । पहिले कहीं कहा नहीं एर लिपे सन्देह है । ४ । अन्नम्भव इन्ने से सन्देह नहीं । ५ । खेत के पूर्व या पत्तर भाग में जहाँ गुरु हल से जुते हुवे खेत को हानि न हो । ६ । या ग्राम के खेड़े पर जहाँ खेत और ग्राम मिले होते हैं वहाँ करै कोई विरोध न होने से । ७ । जहाँ भात पकाना है वहाँ गोबर मट्टी में लीपकर ऊँची वेदी बना जड़ से बिड़के अग्नि स्थापन कर धान पाक में धान के तुषों वा पयाल, पाक जौ का हों तौ जौ के पयाल कुशा वेदी के सब ओर बिछावे । आज्यभागाहुति आक्याहुति देता है ८॥ पृथिवी द्यौः इत्यादि ५ मन्त्र जो मूल कण्डिका में उक्त हैं इनसे ५ घृत की आहुतिदे । ९ । स्थालीपाक की आहुति आगे लिखे अनुसारे दे । सीतायै स्वाहा, प्रजायै स्वाहा, शनायै स्वाहा, भूतयै स्वाहा, । १० । कोई आचार्य कहते हैं स्वाहा भी न लगावे । ११ । स्वाहा शब्द से आहुति होती है यह श्रुति है इवलिये सूत्र १० की निवृत्ति है । १२ । अग्नि के पास बिच्ची कुशों पर सीता रत्नकों को बलि देते हैं "पुरस्तात्" इस मन्त्रसे पूर्व दिशामें । १३ । फिरदक्षिण में "निनिषावर्ध०" इस मन्त्रसे । १४ । फिरपश्चिम में "आभुव प्रभुवो०" । १५ । फिर उत्तर में "भीमावायुसना०" इस मन्त्रसे । १६ । प्रकृत=धान या जौ छोड़ अन्य सुगन्धित मिस्र और घृत से पूर्ववत् मलिकर्म करे । १७ । छि गं भी बलिकर्म यज्ञ करै ऐसा आचार है । १८ । कर्म समाप्तिपर ब्राह्मणों को भोजन करावे । ब्राह्मणों को भाजन करावे । १९ । दोवार उच्चारण ग्रन्थ की समाप्तिका चिन्ह है ।

तीसरा काण्ड कणिका १

अनाहिताग्नेर्नवप्राशनम् । १ । नव<sup>०</sup> स्थालीपाक<sup>०</sup> अप-  
यित्वाऽऽज्यभागाविष्ट्वाऽऽज्याहुती जुहोति 'शतापुधाय शत  
वीर्याय शतोतये अभिमातिषाहे । शतं यो नःशरदोऽजीजा-  
मिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा स्वाहा । ये चध्वारः पथयो  
देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी विपन्ति । तेषां येऽज्यानि-  
मजीतिभावहात् तस्मै नो देवाः परिघृषेह सर्वे स्वाहा, इति  
। २ । स्थालीपाकस्याग्रयणदेवताभ्यो हुत्वा जुहोति खिष्ट-  
कृतेषु 'स्विष्टमग्ने अभि तत् पृणीष्टि विश्वांश्च देवः पृतना  
अभिष्यक् । सुगन्तु पन्थां प्रदिशन् एहि ज्योतिष्मद्वेद्या म-  
रुत् आयुःस्वाहा, इति । ३ । अथ प्राश्नाति—' अग्निः प्रथमः  
प्राश्नातु सहि वेद यथा हविः । शिवा अस्नभ्यमोषधीः  
कृणोतु विश्वचर्षणिः । भद्रान्तः श्रेयः समनैष्ट देवास्त्वयाऽवनेन  
समशीमहित्वा । स नो मयोभूः पितृषाविशस्व शं तोकाप  
तनुवे स्योमः, इति । ४ । अन्नपतीयया वा । ५ । अथ यावाना  
मेतस्युत्यं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्या अधिवनाय चर्षुः ।  
इन्द्र आसोत सीरपतिः शतक्रतुः बीनाशा आसन् मरुतः  
सुदानवः, इति । ६ । ततो ब्राह्मण भोजनम् । ७ ॥१॥

कणिका २ ( आग्रहायणी कर्म )

मार्गशीर्ष्यां पीर्षमास्यानाग्रहायणीकर्म । १ । स्थाली-  
पाक<sup>०</sup> अपयित्वा अवणावदाज्याहुती हुत्वाऽपरा जुहोति—यां  
जना प्रतिनन्दान्त रात्रीं धेनुमिवायतीम् । संवत्सरस्य यापनी  
सा नो अस्तु सुसङ्गली स्वाहा । संवत्सरस्य प्रतिमा या  
ता<sup>०</sup> रात्रिनुमास्नेहे । प्रजा<sup>०</sup> सुवीर्या कृत्वा दीर्घनापुर्व्यंशये  
स्वाहा । संवत्सराय परिवत्सरायेदावत्सरायेद्वत्सराय वत्स-

राय कृणुता बृहन्नमः। तेषां वयं सुमती यज्ञियानां ज्योग्जीता  
 अहताः स्यान्त्वाहा। यीष्मो हेमन्त उतनो वसन्तः शिवा वर्षा  
 अभया शरदः। तेषाञ्चतूनांश्च शत शारदानां निवास एषा-  
 मभये वसेम स्वाहेति । २ । स्थालीपाकस्य जुष्टेति सोमाय  
 सुगशिरसे, मार्गशीर्ष्यै पौर्णमास्यै हेमन्ताय चेति । ३ । प्रा-  
 शनान्ते सक्तुशेषं शूर्पेभ्युच्योपनिष्कमणप्रभृत्याभार्जनात्।  
 भार्जनान्ते उत्सृष्टो बलिर्दित्याह । ४ । पश्चादग्ने स्त्रस्तरमा-  
 स्तीर्योहतं च यास आप्लुता श्रुतवाससः प्रत्यवरोहन्ति  
 दक्षिणतः स्वामी जायोत्तरा यथाकनिष्ठमुत्तरतः । ५ । दक्षि-  
 णतो ब्रह्माणसुपवेशयोत्तरत उदपात्रं शमीशाखासीतालीष्ठा  
 शमनी निधायाग्निमीक्षमाणो जपति—अयमग्निवीरतमोऽयं  
 भगवत्तमः सहस्रधातमः। सुवीर्योऽयां श्रेष्ठयैदधातुनो इति  
 । ७ । पश्चादग्नेः प्राङ्मङ्गलिं करोति । ८ । देवीं जावमिति  
 तिसृभिः स्त्रस्तरमारोहन्ति । ९ । ब्रह्माणामान्त्रयति ब्रह्मन्  
 प्रत्यवरोहाम्, इति । १० । ब्रह्मानुज्ञाताः प्रत्यवरोहन्ति 'आ-  
 युःकोर्तिर्यशो बलमस्त्राद्यं प्रजाम्, इति । ११ । उपेता जपन्ति  
 सुहेमन्तः सुवसन्तः सुगीष्मः प्रतिधीयतां नः शिवा नो वर्षा  
 सन्तु शरदः सन्तु नः शिवाः, इति । १२ । स्योना पूर्णवीनो  
 भव इति दक्षिणपार्श्वः प्राक् शिरसः संविशन्ति । १३ । उपो-  
 त्तिष्ठन्ति ' उदायुषा स्वायुषोत्यर्जन्यस्य वृहद्या पृथिव्याः  
 सप्तधासभिः, इति । १४ । एवं द्विरपरं ब्रह्मानुज्ञाताः । १५ ।  
 अथः शयीरं श्वतुरो मासान् यथेष्टं वा । १६ ॥ २ ॥

कण्डिका ३ । अष्टका \*कर्म )

ऊर्ध्वमाग्रहायस्यास्तिस्रोऽष्टकाः ॥ १ ॥ ऐन्द्री वैश्वदेवी  
 प्राजापत्या पित्र्येति ॥ २ ॥ अपूपमा सशाकैर्यथासंख्यम् ॥ ३ ॥  
 प्रथमाष्टका पक्षाष्टम्याम् ॥ ४ ॥ स्थालीपाकं अपयित्वाऽऽज्य-

भागां वषाऽऽज्याहुती जुगोति भि ॥ अतन्वमारुपयन्निनिष्क-  
 ति ॥ सुभासं क्षेत्रं प्रति नुनमानाः । अहू ॥ स्तन्वते कवयः प्रजा-  
 कतीर्मध्ये उन्दतः परियन्ति भाशयतीः स्यात् ॥ ज्योतिष्मती  
 प्रति नुनमानां देवी नृपस्य इतानि । विपश्यन्ति प्रशयो  
 ज्ञायमाना मानान्पा मातुरम्या उपर्ये स्वाहा ॥ एकाहका  
 एवमावपयाना जज्ञानगर्भं महिनागमिद्गु । तेन दस्युन्  
 अयदन्त देवा एताऽपुराणानभवच्छधीभिः स्यात् ॥ अना-  
 नुजा ननुजां नामकर्म मन्त्रं यद्वत्पश्चिच्छण्डत् । भूयान्तस्य  
 उभती यथायमन्या यो दानयानति मा प्रयुक्त स्वाहा ॥  
 अभून्मम सुमती विरवेदा आष्टमतिष्ठानविद्धि गाधम् ॥  
 भूयासुमस्य सुमती यथायमन्या यो अत्यानतिमा प्रयुक्त  
 स्वाहा ॥ पञ्चदशैरनुपद्यदोष्टा गां पक्षुमारी भूतयोऽनुपद्य  
 पक्षुदिशः पद्दुर्गे गङ्गाः नमानमुध्नीरधिठोकमेड ॥ स्वाहा ॥  
 आतस्य गर्भः प्रथमा उग्रधिष्यपामेवा महिमानं विभर्ति ॥  
 सूर्यस्यैवा परति निष्कलेषु चर्मस्यैवा सवित्तकानियच्छतु  
 स्वाहा ॥ या प्रथमा लीच्छत् साधेनुरभवद्यमे ॥ नानः पय-  
 क्षती धृतीत्तरामुत्तरा ॥ सुगा ॥ स्वाहा ॥ शुक्राप्रपमानभसा  
 ज्योतिषाऽगाहृ विश्रुवा जयलीः अग्निदेतुः । सनाभमर्थ ॥  
 स्वपश्यमाना विभर्ती वरामपर उप आगाः स्यात् ॥ अमूमां  
 पती प्रपमेयमानादन्हां नेत्री जनित्री प्रजाजाम् । एका सती  
 बहुधोषोव्युच्छस्यजीर्णा त्वं अरयसि सर्वनन्वत् स्वाहेति ।  
 ५ । स्यालीपाकस्य जुहोति 'गान्ता पृथिवी शितमन्तरित् ॥  
 शब्दो र्द्यैरभयं कणोत्तु । प्रक्षो दिशः प्रदिश आदिशो नोऽहो  
 रात्रे लुपुतं दीर्घमा नुर्ध्वं शायैस्वः हा । आभी मरीचीः परिपाऽतु  
 सर्वतो पाता ननुद्रो अपहन्तु पापम् । सृतं भविष्यदकृतद् वि-  
 श्वमस्तुमे प्रह्वरभिगुप्तः सुरचितः स्या ॥ स्वाहा । विश्वेआदित्या

यस्यैव देवा रुद्रा गोमारी सकलश्चसन्तु । ऊर्ध्वप्रजामसूत-  
 दीर्घमातुः प्रजापतिर्नपि परयेष्टी दद्यात् नः स्वाहेति । ६ ।  
 आएकायै स्वाहेति । ७ । मध्यमा गवा । ८ । तस्यै वषां जुहोति  
 'वह वषां जातवेदः पितृभ्यः, इति । ९ । इतोऽन्वष्टकासु स-  
 र्वासां पार्श्वरुक्षिसव्याभ्यां परिकृते पितृहपितृयज्ञवत् । १० ।  
 स्त्रीभ्यश्चोपसेचनं चक्रुर्षु सुरया तर्पणेन चाञ्जनानुलेपन  
 खजश्च । ११ । आचार्यायान्तेवाशिभ्यश्चानपत्येभ्य इच्छन् ।  
 १२ । नादया वर्षे च तुरीया शाकाएका । १३ ॥॥

॥ कण्डिका ४ ( शाळाकर्म )

अथातः शाळाकर्म । १ । पुण्योहे शालां  
 कारयेत् । २ । तस्या अवष्टमभिजुहोति 'अच्युताय  
 भौमाय स्वाहा' इति । ३ । स्तम्भमुच्छ्रयति 'इमामु-  
 च्छ्रयामि भुवनस्य नाभिं प्रसोर्धारां प्रतरणीं वसू-  
 नाम् । इहैव ध्रुवा निमित्तामि शालां क्षेमे तिष्ठतु  
 घृतमुक्षमाणा । अश्रावतो गोमती सूनृताय  
 त्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय आत्वा शिशुराक्र-  
 न्दस्या गावो धेनवो आशयमानाः । आत्वा कुमार  
 स्तरुण आवत्सो जगदैः सह । अत्वा परि-  
 स्तुतः कुम्भ आदहनः कलशैरुप । क्षेमस्य पत्नी  
 बृहती सुत्रासा रयिं नो धेहि सुभगे सुवीर्यम् ।  
 अश्रावतह गोमदूर्जसत्रत् पर्णा वनस्पतेरिव । अ-  
 भिनः पूर्यता ७ । रयिरिदमनुश्लेषो वसान इति

\* इच कण्डिका के पाठ संस्कारविधि में भी कुठे ह हैं ॥

गोपायेताम् , इति । ११ । पश्चिमे सन्धावभिमृशति ' अन्नं च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे सन्धौ गोपायेताम्, इति । १२ । उत्तरे सन्धावभिमृशति 'ऊर्कं च त्वा सूनृता चोत्तरे सन्धौ गोपायेताम्, इति । १३ । निष्क्रम्य दिश उपतिष्ठते 'केता च मा सुकेता च पुरस्ताद् गोपायेतामित्यग्निर्वैकेताऽऽदित्यः सुकेता तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पुरस्ताद् गोपायेतामिति । १४ । अथ दक्षिणतो गोपायमानं च मा (रक्षमाणा) चदक्षिणतो गोपायेतामिति\*अहर्वै गोपायमानं रात्री रक्षमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु ते मां दक्षिणतो गोपायेतामिति । १५ । अथ पश्चात् दीदिविश्च मा जागृविश्च पश्चाद् गोपायेतामित्यन्नं वैदीदिविःप्राणो जागृविस्तौ प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा पश्चाद् गोपायेतामिति । १६ । अधोत्तरतोऽस्वप्नश्च माऽनवद्भागश्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा वा अस्वप्नो त्यहर्वै गोपायमानं रात्रीरक्षमाणाते प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तुते मादक्षिणतो गोपायेतांवायुरनवद्भागस्तौ प्रप-

खताभ्यां नमोस्तु तौमोत्तरतो गोपायेतामिति  
 १७॥ निष्ठिनां प्रपद्यते धर्मस्थूणा राजथुश्रोस्तूप  
 महोरात्रे द्वारफलके, इन्द्रस्य गृहा वसुमन्त्रो  
 वरूथिनस्तानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुभिः सह  
 यन्मे किल्वदस्त्युपहूतः सर्व गणः सुखाय साधु  
 संवृतः तां त्वाशातेऽरिष्टवीरा गृहानः सन्तु सर्वतः  
 इति । १८॥ ततो ब्राह्मणभोजनम् ॥ १९ ॥

कण्डिका ५ ( मणिकावधान )

अथातो मणिकावधानम् । १ । उत्तरपूर्वस्यां दिशिदूप  
 वदवत् खात्वा कुशानास्तीर्थाद्यतानरिष्टकाञ्चान्यानि पाभि-  
 मङ्गलानि च तस्मिन् मिनोति मणिकं 'समुद्रो गसि' इति । २ ।  
 अप आभिञ्जति—'आपो रेवतीः क्षययाहि वस्वः क्रतुष मद्  
 विमृथासृतचरायश्चस्थस्थपत्यस्य पत्नी सरस्वती तद् गृणते  
 वयोधाद्' इति । ३ । आपो हिष्ठति च तिसुभिः । ४ । ततो  
 ब्राह्मणभोजनम् । ५ । ॥ ५ ॥

६ कण्डिका

अथातः शीर्षरोगभेषजम् । १ । पाणीं प्रक्षाल्य भ्रुवौ विमार्ष्टि—  
 'पशुभ्यां श्रोत्राभ्यांगोदानः क्लृबुकादधि । यक्ष्मं शी-  
 र्षस्य रराटाद् विवृक्षामीसम्' इति । २ । अह्वेचेद् 'अव-  
 भेक विरूपाक्ष इवेतपक्षो सहायशाः । अथा चित्रपत्त शरी  
 साऽस्याभिताशीः' इति । ३ । क्षेभयो ह्येव भवति । ४ ।

७ कण्डिका

उत्तूलपरिमेहः । १ । जां स्वपतो वविषाणे स्वभूत्रमाचिख्या-

पसलवित्रिः परिपिबन् परीयात् 'परित्वा निरैरहं परि  
सातुः परि स्वष्टुः' । परिपिबोश्च आत्रोश्च स्रष्टेभ्यो  
विष्टजाभ्यहम् । उत्तूल परिमीढोऽसि परिमीढःक्वगमिष्यसि  
इति । २ । स यदि आभ्याद् दावाग्निमुपसमाधाय घृताक्लानि  
कुशेऽङ्घ्रानि जुहुयात् 'परित्वा हूलनो हूल निवृत्तेष्व वीरुधः  
इन्द्रपाशेनछित्वा मद्यां मुक्त्वाऽथान्यमानयेदिति' । ३ । क्षेम्यो  
ह्येव भवति ॥ ४ ॥ १ ॥

( कण्डिका ८ )

शूलगवः । १ । स्वर्ग्यः पशव्यः पुत्र्यो धन्यो यशस्य आयुष्यः  
। २ । औपासनमरण्यं हृत्वा वितानं साधयित्वा रौद्रं  
पशुमालभेत । ३ । सायहम् । ४ । गौर्वाशब्दात् । ५ । वपा  
अपयित्वा स्थालीपाकमवदानानि च रुद्राय वपासन्तरिक्षाय  
स्थालीपाकमिश्राण्यवदानानि जुहोति 'अग्नये रुद्राय शर्वाय  
पशुपतये उग्रायाश्नये भवाय महादेवायेशानायेति च । ६ ।  
वनरूपतिः । ७ । स्त्रिष्टुदन्ते । ८ । दिग्वाधारणम् । ९ । व्या-  
धारणान्तेपत्नीः संयाजयन्तीन्द्रायै रुद्रायै शर्वायै भवान्या  
अग्निंशुहपतिमिति । १० । लोहितं पलाशेषुकूर्धेषु रुद्राय सेनाभ्यो-  
बलिं हरति 'यास्ते रुद्र पुरस्तात् सेनास्ताभ्य एष बलिस्ता-  
भ्यस्ते नमः । यास्ते रुद्र दक्षिणतः सेनास्ताभ्य एष बलिस्ताभ्य-  
स्ते नमः । यास्ते रुद्र पश्चात् सेनास्ताभ्य एष बलिस्ताभ्यस्ते  
नमः । यास्ते रुद्रोत्तरतः सेनास्ताभ्य एष बलिस्ताभ्यस्ते  
नमः । यास्ते रुद्रोपरिष्ठात् सेनास्ताभ्य एष बलिस्ताभ्यस्ते  
नमः । यास्ते रुद्राधस्तात् सेनास्ताभ्य एष बलिस्ता-  
भ्यस्ते नमः' इति । ११ । ऊर्ध्वं लोहितलिङ्गमग्नी प्रास्य-  
त्यधोवा निखनन्ति । ११ । अनुवातं पशुमवस्थारण्य रुद्रैरुप-  
तिष्ठते प्रथनोत्तमाभ्यां वाऽनुवाकाभ्याम् । १३ । नैतस्य पशो-



श्रांसं हरति । १४ । एतेनैव गीयन्नो व्याख्यातः । १५ ।

पायसेनानर्षलुप्तः । १६ । तस्य तुल्यवया गौर्दक्षिणा ॥ १७ ॥ ८ ॥

कश्चिहका ९

अथ यथात्सर्गः । १ । गीयन्नो व्याख्यातः । २ । कार्ति-

क्यां पीर्णमास्यां रेवत्यां याऽऽश्वयुजस्य । ३ । मध्ये गवा-

सुसमितुनग्निं कृत्वाऽऽज्यं संस्कृत्य इहरति, इति षट्

जुहोति प्रतिमन्त्रम् । ४ । पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रत्नतुमवतः

पूषा वाजं सनोतु नः स्वाहा, इति पीठ्यस्य जुहोति । ५ ।

रुद्रान् जपित्वैकवर्षं द्विवर्षं वा यो वा यूथं छादयति यं वा

यूथं छादयेद् रोहितो वैय स्यात् सर्वाङ्गै रूपेती जीवत्सायाः

पयस्विन्याः पुत्रो यूथे च रूपवत्समः स्यात् तमलंकृत्य यूथे

मुख्याश्चतस्रोवत्सतर्पस्ताश्चालंकृत्य "एतं युवानं पतिं धो-

ददानि तेन ऋहन्तीश्चरणा प्रियेण । मानः सास जनुषा सु-

भगा रायस्पोषेण समिषा सदेम" इत्येतयैवोत्सृजेत् । ६ ।

नाश्वस्थं समिमन्त्रयते मयोभूः, इत्यनुवाकशेषेण । ७ । सर्वासां

पयसि पायसं अपयित्वा ब्राह्मणान् भोजयेत् । ८ । पशुम-

प्येके कुर्वन्ति । ९ । तस्य शूलगवेन कल्पोऽप्यारूपातः । १० ॥

कश्चिहका १०

अथोदककर्म । १ । अद्विवर्षं प्रेते मातापित्रोराशौचम् ॥२॥

शौचमेयेतरेषाम् । ३ । एकरात्रं त्रिरात्रं वा । ४ । शरीरमदग्ध्वा-

निखनन्ति । ५ । अन्तःसूतके चेदोत्थानादाशौचं सूतकवत्

। ६ । नात्रोदककर्म । ७ । द्विवर्षप्रभृति प्रेतमाश्मशानात् सर्वे-

ऽनुगच्छेयुः । ८ । यस्यगार्था गायन्तो यमसूक्तं च जपन्त इत्येके

। ९ । यद्युपेतो सुमिजोपक्षादिसमाप्तमाहिताग्नेरोदकान्तस्य

गमनात् । १० । शालाग्निनादहन्त्येनमाहितश्चेत् । ११ ।

सूष्णीं ग्रामाग्निनेतरम् । १२ । संयुक्तं नैथुनं ब्रीहकं याचेत्

'उदकं करिष्यामहे, इति । १३। 'कुरुष्व' मा चैवं पुनः इत्य-  
 शतवर्षे मेते । १४ । 'कुरुष्वम्, इत्येवेतरस्मिन् । १५ । सर्वे  
 ज्ञातयोऽपोभ्यवयन्त्यासप्तमात्पुरुषाद् दशमाद्वा । १६ । स-  
 मानग्रामवासे यावत्सम्बन्धमनुस्मरेयुः । १७ । एकवस्त्राः प्रा-  
 चीनांघीतिनः । १८ । सव्यस्यानानिकयापनीद्य 'अपनःशो-  
 शुषदघम्, इति । १९ । दक्षिणामुखा निमज्जन्ति । २० । प्रेता  
 योदकं सङ्कृतं प्रसिञ्चन्त्यञ्जलिना 'असावेतते उदकम्, इति  
 । २१ । उत्तीर्णाञ्जुचीदेशे शाङ्खलवत्युपविष्टांस्तत्रैतानपव-  
 देयुः । २२ । अनवेक्षमाणा ग्रामभायान्ति रीतिभूताः कनि-  
 ष्ठपूर्वाः । २३ । निवेशनद्वारे पिञ्चुमन्द्पत्राणि विदप्रयाचन्त्यो  
 दकमग्निं, गोमयं, गौरसर्षपांस्तैलमालम्बयाश्मानमाक्रम्य प्र-  
 विञ्चन्ति । २४ । त्रिरात्रं ब्रह्मचारिणीऽथः शायिनो न किञ्चन  
 कर्म कुर्युर्नप्रकुर्वीरन् । २५ । क्रीत्वा लब्ध्वा वा दिवैवान्नमग्नी-  
 युरसा सन् । २६ । प्रेताय पितृणं दत्त्वावनेजनदानप्रत्यव-  
 नेजनेषु नाम ग्राहम् । २७ । मृतमये तां रात्रीं क्षीरोदके वि-  
 हायसि निदध्युः 'प्रेतात्र स्नाहि, इति । २८ । त्रिरात्रं  
 ग्राहमाशीचम् । २९ । दशरात्रमित्येके । ३० । न स्वाध्यायम-  
 धीयीरन् । ३१ । नित्यानि विधत्तेरन् वैतानवर्जम् । ३२ । शा-  
 ल्वाग्नौ चैके । ३३ । अन्य एतानि कुर्युः । ३४ । प्रेतस्पर्शिनो  
 ग्रामं न प्रविशेयुरानन्तदर्शनात् । ३५ । रात्री चेदादित्यस्य  
 । ३६ । प्रवेशनादिसमानमितरैः । ३७ । पक्षं द्वीवाऽऽशीचम् ।  
 ३८ । आचार्यं चैवम् । ३९ । मातामहथोश्च । ४० । स्त्रीणां  
 चाप्रत्तानाम् । ४१ । प्रत्तानामितरे कुर्वीरन् । ४२ । ताश्च ते-  
 षाम् ४३ प्रोपितश्चेत् प्रेयाञ्ज्वणप्रभृति कृतोदकाः कालशेष  
 मासीरन् । ४४ । अतीतश्चेदेकरात्रं त्रिरात्रं वा । ४५ । अथ-

कामोदकान्यृत्विक्प्रवशुर मलिसञ्चयन्धि मातुलभागिनेयानाम्  
 १४६ । अक्षान्ति । १७ । एकादश्यामशुमान् ब्राह्मणान्  
 भोजयित्वा सा संवत् । १८ । प्रेतायोद्दिश्य गामप्येके प्रभित्ति  
 । १९ । पितृकरणे प्रथमः पितृणां प्रेतः स्यात् पुत्रवांश्चेत् ।  
 ५० । निवर्तितं चतुर्थे । ५१ । संवत्सरं पृथगेके । ५२ । न्यायस्तु  
 न चतुर्थेः पिण्णो भवतीति श्रुतेः । ५३ । अहरहरन्ननस्मै ब्राह्म-  
 णायोदकुम्भं च दद्यात् ॥ ५४ । पितृङ्गप्येके निपृणन्ति । ५५ । १०

### कश्चिद्का ११

पशुश्चेदाप्लाव्यागामप्रेशाग्नीन् परीत्य पलाशशाखां  
 निहन्ति । १ । परिष्वयणीपाकरणनियोजनप्रोक्षणान्याधृता  
 कुर्याच्चञ्चान्यत् । २ । परिष्वय्ये हुत्वा तूष्णीमपराः पञ्च । ३ ।  
 वपाद्दुरथं चाभिधारयेद् देवतास्रादिशेत् । ४ । उपाकरणनि-  
 योजनप्रोक्षणेषु स्थालीपाके धैवत् । ५ । वपा हुत्वाऽवदाना-  
 न्यवद्यति । ६ । सर्वाणि त्रीणि पञ्च वा । ७ । स्थालीपाकमि-  
 श्राशयवदानानि जुहोति । ८ । पशवस्सुदक्षिणा । ९ । यद्देवते  
 तद्देवतं यजेत तस्मै च भागं कुर्यात्तं च ब्रूयाद् “इममनुप्रापय,  
 इति । ११ । अद्यन्तरे नावं कारयेत्तवा । ११ ॥ ११ ॥

### कश्चिद्का १२ (अवकीर्णप्रायश्चित्तम्)

अथातोऽवकीर्णप्रायश्चित्तम् । १ । अमावास्यायां चतु-  
 ष्पथे गर्दभपशुमालभेत । २ । निर्वृत्तिं पाकयज्ञेन यजेत् । ३ ।  
 अष्टवद्वानहोमः । ४ । भूमौ पशुपुरोडाशप्रणयान् । ५ । तां-  
 क्खिं परिदधीत् । ६ । ऊर्ध्वबालाभित्येके । ७ । संवत्सरं भिक्षा-  
 चर्यं चरेत् स्वकर्मे परिकीर्तयन् । ८ । अथापरमाज्याऽपुती जुहोति  
 “ कामावकीर्णोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि काम कामाय स्वाहा ।  
 कामाभिः कुरथोऽस्म्यभिः कुरथोऽस्मि काम कामाय स्वाहा ”

\* कुरथोऽस्मि इत्यपि पाठः

इति । ९ । अथोपतिष्ठते “ सम्मासिञ्चन्तु-मरुतः समिन्त्रः  
सं वृहस्पतिः । सं माऽयनग्निः सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन-च”  
इति । १० । एतदेव प्रायश्चित्तम् । ११ ॥१७॥  
( कश्चिहका १३ )

अथातः सभा प्रवेशनम् । १ । सभासभ्येति ‘सभाङ्गिरसि ।  
वादिर्नामासि त्विषिर्नामासि तस्यै ते नमः इति । २ । अथ  
प्रविशति ‘सभा च मा समितिश्चोभे प्रजापतेर्दुहितरौ सचे-  
तसौ । योमानविद्यादुपमा सतिष्ठेत स धेतनो भवतु श-  
सथे जने, इति । ३ । पर्यदमेत्य अपेत ‘अभिभूरहमागमं  
धिराहं प्रतिवाच्यः । अस्याः पर्यद ईशानः सहसा सुदुष्टरो  
जनः, इति । ४ । स यदि सन्धेत ‘क्रुद्धोयम्’ इति, तमभिम-  
न्त्रयते ‘या त एपा रराट्या तनूर्मेन्योः क्रोधस्य नाशनी ।  
तां देवा ब्रह्मचारिणो विनयन्तु सुमेधसः । द्यौरहं पृथिवीचाहं  
तौ ते क्रोधं नयामसि गर्भमश्वतर्यसहासौ, इति । ५ । अथ  
यदि सन्धेत द्रुग्धोऽयमिति तमभिसन्त्रयते ‘तान्ते वाचनास्य  
आदत्ते हृदय आदधे । यत्र यत्र निहिता वाक् तां ततस्तत्  
आददे । यदहं ब्रवीमि तत्सत्यमधरोमत्तोद्यस्व, इति । ६ ।  
एतदेव वशीकरणम् । ७ ॥१३॥

### कश्चिहका १४

अथातो रणारोहणम् । १ । युंक्तेति रथं सम्प्रेष्य युक्त  
इति प्रोक्ते साविराहित्येत्य चक्रे अभिसृशति । २ । ‘रथन्तर-  
मसि’ इति दक्षिणम् । ३ । ‘वृहदसि, इत्युत्तरम् । ४ । ‘वा-  
मदेव्यमसि, इति-कूबरीम् । ५ । हस्तेनोपस्थमभिसृशति ‘अङ्कौ  
न्यङ्कावभितो रथं यौ ध्वान्तं वाताग्रमनुसञ्चरन्तौ । दूरेहेति  
रिन्द्रयावान् पतन्निस्ते नोऽनयः पप्रयः पारयन्तु, इति । ६ ।

‘नमोमाणिचराय, इति दक्षिणं धुष्यं प्राजति । ७ । अग्राप्य  
 देवताः प्रत्यघरोहेत् सम्प्रति ब्राह्मणान् मध्ये ना अभिक्रम्य  
 पितृन् । ८ । न स्त्रीब्रह्मचारिणी सारथी स्याताम् । ९ । मुहूर्त-  
 मतीयाय जपेद् ‘इह रतिरिहरमध्वसु, । १० । एके मास्त्वह-  
 रतिः इति ष, । ११ । स यदि दुर्बलो रथः स्यात् तमा-  
 स्थाय जपेद् ‘अयं वामाश्विना रथा मा दुर्गे मा स्तरोरिषद्  
 इति । १२ । स यदि भ्रम्यात् स्तम्भमुपस्पृश्य भूमिं वा जपेद्  
 ‘एष वामाश्विना रथो मा दुर्गे मा स्तरोरिषद् इति । १३ ।  
 तस्य न काचनातिर्न रिष्टिर्भवति । १४ । यात्वाऽध्वानं वि-  
 मुच्य रथं यवसोदके दापयेद् ‘एष उ ह वाहनस्यानपन्हव,  
 इति श्रुतेः । १५ ॥ १४ ॥

### कथिङ्का १५

अथातो हस्त्यारोहणम् । १ । एत्य हस्तिनमभिसृशति  
 ‘हस्तियशसमेसि हस्तिवर्चसमसि, इति । २ । अथारोहति  
 ‘इन्द्रस्य त्वा वज्रेशाभिमिष्ठामि स्वस्ति मा सम्पारय, इति  
 । ३ । एतेनैवाश्वारोहणं ध्याख्यातम् । ४ । उत्पमारोह्यन्नभि-  
 मन्त्रयते ‘त्वाष्ट्रोऽसित्वष्टु दैवत्यः स्वस्ति मा सम्पारय, इति  
 । ५ । रासभमारोह्यन्नभिमन्त्रयते ‘शूद्रोऽसि शूद्रजन्माऽग्नेयो  
 वै द्विरेताः स्वस्ति मा सम्पारय, इति ॥ ६ । पश्याममभि-  
 मन्त्रयते ‘नमोरुद्राय पथिषदे स्वस्ति मा सम्पारय, इति  
 । ७ । चतुष्पथमभिमन्त्रयते ‘नमोरुद्राय चतुष्पथसदे स्वस्ति  
 मा सम्पारय, इति । ८ । नदीसुत्तरिष्यन्नभिमन्त्रयते ‘नमोरु-  
 द्रायाप्सुषदे स्वस्ति मा सम्पारय, इति ९ । नावसरोह्यन्न-  
 भिमन्त्रयते सुनावम्, इति । १० । उत्तरिष्यन्नभिमन्त्रयते  
 ‘सुप्रामाणम्, इति । ११ । वनमभिमन्त्रयते ‘नमो रुद्राय

वनसदे स्वस्ति मा सम्पारय, इति । १२ । गिरीमभिमन्त्रयते  
 'नमोरुद्राय गिरिपदे स्वस्ति मा सम्पारय, इति । १३ ।  
 श्मशान मभिमन्त्रयते ' नमो रुद्राय पितृपदे स्वस्ति मा स-  
 म्पारय, इति । १४ । गोष्ठमभिमन्त्रयते ' नमो रुद्राय शकृत्पि-  
 षहसदे स्वस्ति मा सम्पारय, इति । १५ । यत्र चा न्यत्रापि  
 ' नमो रुद्राय, इत्येव ब्रूयात् ' रुद्रो ह्येवेद सर्वम्, इति  
 श्रुतेः । १६ । सिचाऽवधूताऽभिमन्त्रयते ' सिगसि न वज्रोऽसि  
 नमस्ते अस्तु मानाहि सीः, इति । १७ । स्तनयित्तुमभिम-  
 न्त्रयते ' शिवा नो वर्षाः सन्तु शिवा नः सन्तु हेतयः । शिवा  
 नस्ताः सन्तु यास्त्व स्रगसि वृत्रहन्, इति । १८ । शिवा  
 वाश्यमाना मभिमन्त्रयते ' शिषो नाम, इति । १९ । शकुनि-  
 वाश्यमानमभिमन्त्रयते ' हिरण्यपर्णं शकुने देवानां प्रहितं  
 गम । यमदृत नमस्ते ऽस्तु किम्त्वा काङ्क्षारिणो ब्रवीद्, इति  
 । २० । लक्ष्मणं वृक्ष मभिमन्त्रयते ' मा त्वाऽशनिर्ना परशुर्ना  
 वातो मा राजप्रेषितो दशहः । आङ्कुरास्ते प्ररोहन्तु निवातेत्वा-  
 ऽभिवर्षत् । अग्निष्ठे मूलं माहि सीत् स्वस्ति ते ऽस्तु वन-  
 स्पते स्वस्ति मे ऽस्तु वनस्पते, इति । २१ । स यदि किञ्चि-  
 क्षमेत् तत्प्रतिशृङ्गातु ' द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिशृ-  
 ङ्गातु' इति साऽस्य न ददतः क्षीयते भूयसीष प्रतिशृङ्गीता  
 भवति । २२ । अथ यद्योदनं लभेत तत् प्रतिशृङ्ग ' द्यौस्त्वा,  
 इति तस्य द्विः प्राशनाति ' ब्रह्मात्वाप्राशनातु ब्रह्मात्वा प्रा-  
 शनातु, इति । २३ । अथ यदि मन्थं लभेत, तत्प्रतिशृङ्ग द्यौ-  
 स्त्वा, इति तस्य त्रिः प्राशनाति ' ब्रह्मात्वाप्राशनातु ब्रह्मात्वा  
 प्राशनातु ब्रह्मात्वा पिबतु, इति । २४ ॥ १५ ॥ \* .

\* नाट-काशीके छपे पुस्तक में कण्विका १५ सेही १६ भी मिलादी है । यहीं समाप्त कर दिया है । और क० १५ के २२ ही सूत्र हैं ॥

कथिष्ठका १६

अथातोऽधीत्याधीत्यानिराकरणं ' प्रतीकं मे विषदसं  
जिह्वा मे मधु यद्वयः । कर्णाभ्यां मूरि शुभ्रये ना त्वं हार्धा  
श्रुतं मयि । ब्रह्मणः प्रवचनमसि ब्रह्मणः प्रतिष्ठानमसि ब्रह्म-  
कोशोऽसि अनिरसि शान्तिरस्यनिराकरणमसि ब्रह्मकोशं मे  
विश । वाचा त्वा पिदधामि वाचा त्वाऽपिदधामि स्वरकरण-  
कण्ठ्यीरसदन्त्योऽप्यग्रहणधारणोऽप्यारण्यशक्तिर्मयि भवतु ।  
आप्यायन्तु मेऽङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रं यशोबलम् । यन्मे  
श्रुतमधीतं तन्मे मनसि तिष्ठतु तन्मे मनसि तिष्ठतु ॥ १६ ॥

इति पारस्कर गृह्यसूत्रं समाप्तम् ।

परिशिष्टकथिष्ठका

अथातो वापीकूपतडागारासदेवताघतनपुष्करिययाः प्रतिष्ठा-  
पत्नं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ तत्रोदगयनआपूर्यमाणपक्षे पुरयाहे  
तिथिवारकालौ नक्षत्रेषु गुणान्विते तत्र वारुणं यवमयं चरुं  
अपयित्वाज्यभागान्विष्णुज्यहुतिर्जुहोति " त्वन्नोअग्नेसत्त्वन्नो  
अन्नइमंमे वरुण तत्त्वायाभि,येते शतमयाश्चाग्नेउदुत्तनमुत्  
हिराजा वरुणस्योत्तम्भनमग्नेरनीकामिति दशर्चं हुत्वा । रा  
स्वालीपाकस्य जुहोत्यग्नेये स्वाहा सेभाय स्वाहा वरुणाय  
स्वाहा यज्ञाय स्वाहोग्राय स्वाहा भीमाय स्वाहा शतक्रतवे  
स्वाहा व्युष्ट्यै स्वाहा स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्तं स्विष्टकृत्  
माश्रुतिं ब्रह्मवराणि सिष्टत्वांलङ्घन्य ॥ ३ ॥ गांसारयित्वाचार्याय  
वरं दत्त्वाकर्णवेष्टकौ वासां सिधे जुर्दक्षिणा ॥ ४ ॥ ततो ब्राह्मण  
शौजनम् ॥ ५ ॥ इति शम्भु

## पारस्करभाषाभाष्य

पृ० ८ में मधुपर्क में पशुवध पर और पृ० २६ पुंसवन में कूर्म पित्त पर पृष्ठ और ३३ के नोट देखने योग्य हैं ॥

पृ० ३६ पर अन्नप्राशन में सूत्र ७ से १२ तक प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं । कारण वहीं लिख दिया है ॥

काण्ड ३ समस्त ही हमने बारीक टाइप से छापा है । उस में प्रक्षिप्तांश बहुत अधिक प्रतीत हुआ है जैसा नीचे की सूचीसे पता लगेगा ।

### काण्ड ३

- |                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| १ नव प्राशन       | ९ वृषोत्सर्ग                    |
| २ आग्रहायणी कर्म  | १० उदक कर्म                     |
| ३ अष्ट का कर्म    | ११ पशुकल्प                      |
| ४ शाला कर्म       | १२ अवकीर्ण                      |
| ५ मणिकायधान       | १३ सभा प्रवेश                   |
| ६ शिर रोग का इलाज | १४ रथ पर बैठना                  |
| ७ वशा करण         | १५ हाथी पर चढ़ना                |
| ८ शूल गव          | १६ पहा हुआ न भूलना              |
|                   | १ बापी कूप प्रतिष्ठा परित्रिष्ट |



१-माघीय ग्रंथों में अन्तमें पाठ देवाकर पढ़ने का प्रचार था सो पारस्कर सूत्र में दूसरे कारण के अन्त में कण्डिका 19 में ब्राह्मणान् भोजयेत्, ब्राह्मणान् भोजयेत् ऐसे देवाकर है, ऐसा पूर्व कारण के अन्त में नहीं है इससे भी कर्म-समाप्ति नहीं किन्तु ग्रंथ समाप्ति सीही प्रतीत होती है ॥

२-पूर्वग्रंथों में २ भाग या ४ भागहुवा करतेथे ३ भाग बहुत कम होते थे ॥

३-इस समय में दोही कारणों के कर्मकाण्ड का प्रचार हो जाय तो बहुत लाभ है तीसरे का भाषाभाष्य छपाने से गौरव की हानि होती है वृद्धि नहीं ॥

४-उस का भाषानुवाद भी हम ने इसी लिये नहीं किया कि भाष से यज्ञ या पशुवध हमारे पौराणिक पहीसी भी कलिवर्जित कहकर उसे करना धर्म नहीं मानते हैं तो कलियुगी भाषा में उस भाग का अर्थ ही ब्यां करने की आवश्यकता है ॥

५-हमने मूल इस लिये छपा दिया है कि मूल अन्त रहे तो नजाने कोई बात इस से भी उत्तम निकल आवे, इसी लिये उसे वारीक टाइप में छपाया है, ग्रन्थ से अलग नहीं किया है ॥

६-मंत्रों का अर्थ अधिकतर संस्कार चन्द्रिका में भी उपशुका है उद्यम सेलिखा मंत्रार्थभी संसका नहीं जाता है विस्तार से लिखने योग्य समय नहीं है, दूसरे संस्करण में यत्न करूंगा कि मंत्र प्रकारादिकगतेजातकरसदका अर्थवही करके छपाऊँ ॥

